



गौरवशाली भारत

नई दिल्ली से प्रकाशित

RNI No .DELHIN/2011/38334

मुख्य आड़े

पेज 3

चार अगस्त को दिल्ली के हजारों बच्चे इकट्ठे होकर बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा

पेज 5

आईआरसीटीसी द्वारा माह सितम्बर में लखनऊ से अण्डमान भ्रमण के लिये हवाई यात्रा पैकेज का संचालन

पेज 7

गर्त में जा रहा चीन का रियल एस्टेट, एशिया की सबसे अभीर महिला की संपत्ति हुई आधी

19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

बाढ़ के बीच जोधपुर में सेना ने मोर्चा संभाला; वाराणसी में दशाश्वमेध घाट की आरती की जगह दोबारा बदली

नई दिल्ली। देश के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हो गए हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर की ओर शिफ्ट होने की वजह से अगले 2-3 दिनों में उत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी। इधर, राजस्थान में बारिश ने बीते 33 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सामान्य से 55 प्रतिशत ज्यादा बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। जोधपुर की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहां जिला प्रशासन को मदद के लिए सेना के जवानों को लगाया गया है। यूपी में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत 22 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कानपुर में गुरुवार सुबह 2 घंटे झमाझम बारिश हुई। इससे सड़कें तालाब बन गईं। उधर, वाराणसी में दशाश्वमेध घाट की आरती की जगह को दोबारा बदल दिया गया है।



अगले 4 दिनों में 3 राज्यों में भारी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों में उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा-चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी बारिश होगी।

असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 31 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं, सिक्किम, मेघालय और नागालैंड में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में भी अगले चार दिन तक बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में सामान्य से 55 फीसदी ज्यादा बरस चुके मानसून के कारण कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं।

यूपी 22 जिलों में बारिश का अलर्ट

यूपी में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत 22 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बीते 24 घंटे में 7.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। कानपुर में गुरुवार सुबह 2 घंटे झमाझम बारिश हुई। इससे सड़कें तालाब बन गईं। नरवल कोतवाली में मालखाने से लोकअप तक पानी भर गया है। पुलिसवालों और फरियादियों को आने-जाने में दिक्कत हुई। लखनऊ में करीब 11 बजे बारिश शुरू हुई, जो अब तक जारी है। वाराणसी में गंगा नदी के उफराने से 14 घाट डूबे चुके हैं। एक दिन में यहां 78 सेमी वाटर लेवल बढ़ा है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के शवदाह स्थल भी बदले जा रहे। दशाश्वमेध घाट की आरती की जगह को दोबारा बदल दिया गया है। आरती के आयोजकों ने बताया ऐसा पहली बार है कि इतनी जल्दी-जल्दी गंगा के आरती स्थल को बदला जा रहा है। हमीरपुर में बुधवार की देर रात उफाना एक नाले में बोलेरो बहने लगी। उसमें सवार 2 साल की बच्ची समेत 8 लोग किसी तरह गाड़ी का गेट तोड़कर बाहर निकल आए, लेकिन तीन साल की बच्चा नाले में बह गया। अभी उसका कुछ पता नहीं चल सका है। मथुरा में बुधवार की देर रात तेज बारिश हुई। सड़क पर जलपराव हो गया। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं। कानपुर में गंगा बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं।

बारिश का दौर कुछ धीमा होने के बाद प्रभावित एरिया में रेस्क्यू काम स्टार्ट किया गया है। हालांकि, इलाकों में

पानी अब भी जमा होने से एजेंसियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा रहा है।

देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20557 नए मामले दर्ज

नयी दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के 20557 नए मामले सामने आए हैं और जिससे सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 146323 हो गयी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को यहां बताया कि सुबह सात बजे तक 203.21 करोड़ टीके दिये जा चुके हैं, इनमें पिछले 24 घंटे में कुल 4069241 टीके लगाए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान देश में कोरोना महामारी से कुल 43286787 लोग मुक्त हो गए हैं और मुक्तों की संख्या 526211 तक पहुंच गयी है। देश में कोरोना संक्रमण के नए

मामले सामने आने के साथ साप्ताहिक दर 4.71 प्रतिशत हो गयी है, जबकि दैनिक संक्रमण 5.18 फीसदी है। रिकवरी दर 98.47 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.20 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में 3,96,783 कोविड परीक्षण किये गये हैं और अब तक कुल 87.40 करोड़ कोविड परीक्षण किए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोरोना सक्रिय मामले 1193 घटकर 20094 रह गये हैं और इससे निजात पाने वालों की संख्या 2047555 हो गयी है। इस महामारी से पांच और मरीजों की मौत होने से अभी तक राज्य में 21339 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान केरल में कोरोना सक्रिय

मामले 38 बढ़कर 17802 रह गये हैं और इससे निजात पाने वालों की संख्या 6626184 तक पहुंच गयी है। इस महामारी से अभी तक राज्य में 70424 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में कोरोना 430 सक्रिय मामले घटकर 14284 रह गये हैं और इससे निजात पाने वालों की संख्या 3485579 तक पहुंच गयी है। राज्य में मृतकों की संख्या 38032 पर स्थिर है। इस बीच महाराष्ट्र में भी कोरोना सक्रिय मामले 149 घटकर 13943 रह गये हैं और इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 7877288 हो गयी है।

3 और सांसद सदन से निलंबित, अब तक 27

50 घंटे के धरने पर बैठे; विपक्षी पार्टियों ने संभाला खानपान

नई दिल्ली। निलंबित सांसदों का धरना बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ है। ये शुक्रवार दोपहर तक चलेगा। राज्यसभा से गुरुवार को विपक्ष के तीन और सांसद सस्पेंड किए गए। इनमें आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता, संदीप पाठक और निर्दलीय अजीत कुमार शामिल हैं। अब तक लोकसभा और राज्यसभा के 27 सांसद निलंबित हो चुके हैं, इसमें चार लोकसभा के और 23 राज्यसभा के हैं। इधर, सस्पेंड हुए सांसद संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने 50 घंटे का रिले धरना दे रहे हैं। यानी बारी-बारी से 50 घंटे तक सांसद धरना दे रहे हैं। बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ धरना शुक्रवार दोपहर एक बजे तक



चलेगा। सांसदों के खाने-पीने समेत जरूरी सुविधाओं का इंतजाम विपक्षी पार्टियों ने किया है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए बाकायदा फूड रोस्टर तैयार किया गया है। इसमें दही-चावल, डोसा, हलवा, चिकन और गाजर हलवा तक शामिल है। सस्पेंड हुए सांसदों के हाथ में मोदी-शाह तानाशाह की तख्ती है। सांसदों ने

आरोप लगाया है कि सरकार सदन में चर्चा से भाग रही है इसलिए हम लोगों को सस्पेंड कर दिया है। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि गुजरत में जहरीली शराब से हुई मौत का मुद्दा राज्यसभा में उठा रहा था, लेकिन मुझे सस्पेंड कर दिया गया। राज्यसभा से मंगलवार को विपक्ष के 19 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। इनमें से 7 सांसद सिर्फ तुणमूल कांग्रेस के थे। वहीं बुधवार को आप सांसद संजय सिंह को निलंबित किया गया है। सभी पर चर्चा की मांग को लेकर उप सभापति के ऊपर कागज फेंकने का आरोप है। लोकसभा में सोमवार को भारी हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिड़ला ने कांग्रेस के 4 सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया था। ये सांसद ज्योतिमणि, माणिकम टैगोर, टीएन प्रधान और राम्या हरिदास हैं।

सोनिया-स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक

अधीर अपनी गलती के लिए मांग चुके हैं माफी: सोनिया

नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को लेकर जो कुछ कहा, उसके लिए वह माफी मांग चुके हैं। श्री चौधरी ने भी कहा कि उनसे चूक हुई है और इसके लिए पहले ही माफी मांग ली है। गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भारी हंगामे के कारण इस मुद्दे पर लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद संसद भवन परिसर में पत्रकारों के सवाल पर कहा कि श्री चौधरी पहले ही माफी मांग चुके हैं। इससे पहले लोकसभा में भाजपा की स्मृति ईरानी ने श्री चौधरी के बयान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उसे महिला विरोधी तथा आदिवासी विरोधी बताया और कहा कि कांग्रेस को एक गरीब आदिवासी महिला का राष्ट्रपति पद तक का सफर रास नहीं आ रहा है।

इस दौरान सदन में मौजूद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि आज लोकसभा में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के प्रति भाजपा की तरफ से बेहद शर्मनाक व्यवहार हुआ। पहले उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ और बाद में जब श्रीमती गांधी भाजपा की महिला सांसदों के पास गईं तो उनके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया गया। उनका कहना था कि भजपा महिलाओं का वोट पाने को अच्छे-अच्छे नारे गढ़ती है लेकिन उसी भाजपा ने आज सदन में एक महिला यानी श्रीमती गांधी का अपमान किया है। कांग्रेस संघर्ष विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने भी श्रीमती ईरानी के व्यवहार पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया, लेकिन क्या अध्यक्ष इसकी निंदा करेंगे? क्या नियम सिर्फ विपक्ष के लिए होते हैं?



देवी के पास पहुंचें और उनसे स्थिति को लेकर बात करने लगी। श्रीमती गांधी ने जानना चाहा कि बार बार उनका नाम सदन में क्यों लिया जा रहा है। इसी बीच प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के बहाने कांग्रेस तथा श्रीमती गांधी पर तीखा हमला करने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां पहुंच गईं और उन्होंने दोनों की बातचीत में हस्तक्षेप का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि श्रीमती गांधी ने कहा- 'मुझसे बात मत कीजिए'।

एक सिरिंज से 40 बच्चों का वैक्सीनेशन

सागर टीकाकरण अधिकारी निलंबित; टीका लगाने वाला नर्सिंग छात्र बोला- मुझे एक ही सिरिंज दी

सागर। मध्य प्रदेश के सागर में कोरोना वैक्सीनेशन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने बुधवार को जैन पब्लिक स्कूल में बच्चों का टीकाकरण करने के लिए नर्सिंग के छात्र को अकेले भेज दिया। उसने एक ही सिरिंज से चालीस बच्चों को वैक्सीन लगा दी। पेरेंट्स ने हंगामा किया तो छात्र बोला- अफसरों ने एक ही सिरिंज देकर कहा था कि इसी से सभी बच्चों को वैक्सीन लगाना है। मामले में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. एसआर रोशन को निलंबित कर दिया गया है। संभागायुक्त मुकेश शुक्ला ने कलेक्टर दीपक आर्य की रिपोर्ट पर कार्रवाई की। इस मामले में गुरुवार शाम को 19 बच्चों की ब्लड सैंपल रिपोर्ट आ गई



है। सभी की रिपोर्ट नॉर्मल है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं मिला है। अभी कुछ और रिपोर्ट्स आना बाकी है।

नर्सिंग स्टूडेंट की लापरवाही पर अभिभावकों का हंगामा

जैन पब्लिक स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपने कर्चारियों की जगह नर्सिंग छात्र की इव्टी लगाई थी। नर्सिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट जितेंद्र ने वैक्सीन लगाना शुरू किया। उसने एक के बाद एक 40 बच्चों को एक ही सुई से वैक्सीन लगा दी। दिनेश नामदेव 9th क्लास में पढ़ने वाली बेटी को वैक्सीन लगवाने पहुंचे, तो उन्होंने देखा सभी बच्चों को एक ही सुई से वैक्सीन दी जा रही है। उन्होंने इसका विरोध किया तो जितेंद्र ने बताया कि उसे एक ही सिरिंज दी गई है। इस पर दिनेश ने ऐरेशन जाहिर किया। उनके साथ अन्य पेरेंट्स भी इकट्ठा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया।

अफसर की सफाई- पूरी सिरिंज दी थी, छात्र ने गुना दी होगी

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. एसआर रोशन का कहना है कि टीकों को जितनी वैक्सीन दी, उस हिसाब से सिरिंज दी थी। हो सकता है छात्र ने गिरा दी हो। अगर ऐसा हुआ तो उसे मुझे फोन करके बताना चाहिए था।

स्वास्थ्य विभाग ने जितेंद्र अहिरवार के खिलाफ एकआईआर दर्ज कराई है। NHM संचालक

विपक्ष के खिलाफ मोदी सरकार ने किया एजेंसियों का दुरुपयोग : कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार ने पिछले आठ साल के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल हथियार के रूप में विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ किया है और इसके जरिए डरा धमका कर विपक्षी आवाज दबाने का प्रयास करती रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने गुरुवार को यहां पार्टी मुख्यालय में विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 2014 के बाद जिस तरह से सरकार ने विपक्ष के खिलाफ इस एजेंसी का दुरुपयोग किया है उससे साफ है क्यों एजेंसी अपना अस्तित्व खो चुकी है और सरकार का हथियार बन कर काम कर रही है। उनका कहना था कि पहले भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को सरकार में इस तरह से एजेंसियों का

इस्तेमाल कभी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पिछले आठ साल के दौरान इस एजेंसी में सिर्फ सरकार के इशारे पर अपने काम को अंजाम दिया है। उसने इन आठ साल में सिर्फ सरकारी एजेंसी बन कर काम किया है और अपने उसके जो अधिकार थे उनको वह भूल गई। प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने 2004 से 2014 के बीच 112 छापेमारी है जबकि 2014 के बाद से अब तक 3000 छापेमारी की गई है। इससे साफ है कि इस एजेंसी का मोदी सरकार ने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है और विपक्ष को डराने का काम किया। उन्होंने कहा कि छापेमारी की इन घटनाओं से साफ है कि इसमें 99 प्रतिशत छापे विपक्षी नेताओं के खिलाफ पड़े हैं।

महिला आयोग ने मुर्गू के अपमान पर अधीर रंजन चौधरी को मेजा नोटिस

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए अपमानजनक शब्द 'राष्ट्रपत्नी' का प्रयोग करने के लिए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को नोटिस भेजा है और एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुरुवार को श्री चौधरी को भेजे नोटिस में कहा है कि उन्हें श्रीमती मुर्मू के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग करने का स्पष्टीकरण लिखित में देना होगा और आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। आयोग ने श्री चौधरी को तीन अगस्त सुबह 11.30 बजे पेश होने को कहा है। आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी पूरे मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा है।

ईडी रेड ममता बनर्जी ने पार्थ को मंत्री पद से हटाया, फिर पार्टी की जिम्मेदारियां भी छीनीं

अर्पिता मुखर्जी के चौथे प्लैट पर ईडी ने मारा छापा

एजेंसी

कोलकाता। 23 जुलाई को अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगांज के डायमंड सिटी फ्लैट और 28 जुलाई को उत्तर 24 परगना के बेलघरिया फ्लैट पर ईडी ने छापेमारी की। पहले दिन 26 घंटे की रेड में 21 करोड़ कैश और दूसरे दिन 18 घंटे की रेड में करीब 28 करोड़ कैश ईडी ने बरामद किया था। बंगाल के शिक्षक भर्ती चोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट पर छापा पड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस बार कोलकाता एयरपोर्ट के पास चिनार पार्क स्थित



फ्लैट में रेड डाली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस छापे में ईडी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। बुधवार से गुरुवार तक चली 18 घंटे की रेड में ईडी ने पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो गोल्ड जवा किया था। कैश के बारे में श्रद्ध के सवाल पर अर्पिता ने बताया कि ये सारे रुपए पार्थ चटर्जी के हैं। उन्होंने कहा, पार्थ इस घर का इस्तेमाल रुपए रखने के लिए करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि घर में इतना सारा कैश रखा होगा। पिछले शनिवार को हुई छापेमारी में अर्पिता के घर से 21 करोड़ रुपए कैश और 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली थी। यानी कुल मिलाकर अर्पिता से अब तक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश और ज्वेलरी मिल चुकी है।

मंत्री समेत TMC के सभी पदों से हटाए गए पार्थ

पश्चिम बंगाल की सीएफ ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती चोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है। पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ममता ने ये एक्शन लिया है। इसके बाद ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शाम को अनुशासन समिति की बैठक बुलाई और उन्हें पार्टी संगठन के सभी पदों से भी हटा दिया। पार्थ के पास पार्टी महासचिव, वाइस प्रेसिडेंट और तीन अन्य जिम्मेदारी थीं। अभिषेक ने कहा कि पार्थ जांच जारी रहने तक वे पार्टी से

मंत्री समेत TMC के सभी पदों से हटाए गए पार्थ

सस्पेंड किए गए हैं। अगर वे बेगुनाह हुए तो वे फिर से पार्टी में आ सकते हैं। अर्पिता के घर करोड़ों रुपए के कैश-ज्वेलरी मिलने के बाद TMC में ही पार्थ चटर्जी को हटाने की मांग होने लगी थी। गुरुवार को ममता बनर्जी ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त भी कर दिया। पार्थ पर कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ने कहा- पूरा मामला एक बड़ी साक्षिण्य का हिस्सा है। सिर्फ एक लड़की के घर से रुपए बरामद हुए हैं। पार्थ को इससे एक्साइट करायें कि TMC भ्रष्टाचार के मामले में बेहद सख्त सख्त पार्टी है। इसे बदला नहीं जा सकता।

शार्ट न्यूज

कश्मीर में भारी बारिश से आयी बाढ़

श्रीनगर। केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और कश्मीर घाटी के अन्य प्रमुख हिस्सों में गुरुवार को भारी बारिश होने के कारण अचानक आयी बाढ़ से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया था कि आले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में रातभर भारी बारिश हुई, जिससे शहर की कई इलाकों में जलभराव हो गया। लोगों का आरोप है कि जल निकासी नहीं होने के कारण शहीदगंज समेत कई जगहों पर बारिश का पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया है। श्रीनगर के बाहरी इलाके में औद्योगिक एस्टेट में अचानक आई बाढ़ के कारण ग्रेटर कश्मीर अखबार का कार्यालय जलमग्न हो गया। परिसर के भूतल में लगभग तीन फुट पानी भर गया, जिससे मशीनरी, अखबार की रील, कंप्यूटर और अन्य सामान भींग कर खराब हो गये। भारी बारिश के कारण पटेदखल जिले के कानग इलाके के शाह मोहल्ला कुलगुंड में एक नाले में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे श्रीनगर-लेह रास्तेगर्म अस्थायी रूप से बंद हो गया। दक्षिण कश्मीर के खरगुा कुलगाम से भी बाढ़ आने की रिपोर्ट मिल रही है। संपूर्ण कश्मीर घाटी में भारी बारिश के कारण कई नालों में कफ़ान आ गया है। आज सुबह साढ़े आठ बजे तक श्रीनगर में 43.9 मिमी, काजीगुंड में 30.6, पहलगाम में 5.2, कुपवाडा में 0.4, कोकरनाग में 1.8 और गुलमर्ग में 22.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गयी है।

खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा स्थगित

श्रीनगर। केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा गुरुवार को खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालटाल मार्गों से अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई। अधिकारियों ने कहा कि खराब मौसम के कारण आज दक्षिण कश्मीर में वारंपरिक नुनवान पहलगाम आधार शिविर से किसी भी यात्री को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। हिम शिबलिंग के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों को भी चंदनवाड़ी और पंजतरणी के पड़वों से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा, मार्ग में कई स्थानों पर अभी भी बारिश हो रही थी और बुधवार को ट्रेक पर भारी बारिश हुई थी। मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मौसम में सुधार होने तक यात्रा स्थगित करने का फैसला किया गया है। ध्राज किसी भी तीर्थयात्री को छोटे बालटाल मार्ग से दुमैल होते हुए अमरनाथ गुफा तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। अधिकारियों ने कहा, बालटाल से अमरनाथ गुफा तक के रास्ते पर अभी भी बारिश हो रही है। तीस जून को तीर्थयात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 2,80,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बुधवार शाम तक गुफा मंदिर में पूजा-अर्चना की थी।

अमरनाथ की छड़ी मुबारक पहुंची शंकराचार्य मंदिर

श्रीनगर। अमरनाथ की छड़ी मुबारक (चांदी की गदा) को हरियाली-अमावस्या (श्रावणी अमावस्या) के अवसर पर गुरुवार को पूजा के लिए एशोक के पवित्रहासिक शंकराचार्य मंदिर में ले जाया गया। चांदी की गदा के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरि के नेतृत्व में छड़ी मुबारक को शंकराचार्य मंदिर ले जाया गया और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ पूजा की गई। पवित्र छड़ी के साथ आए कई साधुओं ने दो घंटे से अधिक समय तक चली प्रार्थना में भाग लिया। जम्मू-कश्मीर की शांति और समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थना भी की गई। छड़ी-मुबारक को शुक्रवार को देवी की पूजा करने के लिए शारिका-भवानी मंदिर, हरि पर्वत, श्रीनगर ले जाया जाएगा। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 30 जून को शुरू हुई और 43 दिनों तक चलेगी। बाबा बर्फानी के स्वनिर्मित हिमलिंग के अब तक दो लाख 80 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं।

ओडिशा के 5393 गांवों में एक भी मोबाइल टावर नहीं : बेहरा

भुवनेश्वर। ओडिशा के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री तुषारकांति बेहरा ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य के करीब 5,393 गांव में एक भी मोबाइल टावर नहीं हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य गनेश राम सिंह खुटिया (भाजपा) के सवाल का उत्तर देते हुए श्री बेहरा ने कहा कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य के कुल 47,677 गांवों में से आकांक्षी जिलों के 5,393 गांवों में केंद्र सरकार की दो परियोजनाओं के माध्यम से 4जी सेवा, मोबाइल, इंटरनेट सेवाएं स्थापित करने की योजना है। श्री बेहरा ने कहा कि यूनिसर्सल सर्विसेस ऑब्लिंगेशन फंड (यूसएसओएफ) वामपंथी उग्रवाद के दूसरे चरण की परियोजनाओं के तहत बराहड़, बौध, कालाहांडी, कंधमाल, कोरपुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, नुआपाड़ा और रायगढ़ जैसे नौ जिलों में 483 4जी मोबाइल टावर लगाने की योजना है। इसके अलावा, यूसएसओएफ आकांक्षी जिला प्रोजेक्ट के तहत 10 जिला बालंगीर, कोरपुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, नुआपाड़ा और रायगढ़ के 3933 गांवों में 2379 4जी टावर स्थापित किए जाएंगे।

होमगार्ड भर्ती में गडबड़ी के मामले में हाईकोर्ट नाराज, दोषियों के खिलाफ वया कार्रवाई की गयी

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में होमगार्ड भर्ती में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि आरोपियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गयी है? साथ ही कंपनी कमांडर राकेश कुमार और हरिद्वार के जिला कमांडेंट गौतम कुमार को भी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने को कहा है। इस मामले को सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ में हुई। प्रकरण को हरिद्वार निकासी योग्य-सैनी की ओर से चुनौती दी गयी है। श्री सैनी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि हरिद्वार जनपद में 2017-18 में होमगार्ड भर्ती में जमकर गडबड़ी हुई है। मोटी रकम लेकर अयोग्य लोगों को भर्ती किया गया है। आरोप लगाया गया कि भर्ती के नाम पर लगभग डेढ़ करोड़ की हेरफेरी की गयी है। जिला कमांडेंट गौतम कुमार के खाते में लाखों रुपये जमा किये गये हैं। इसके प्रमाण उपलब्ध हैं। इस मामले की शिकायत राज्यपाल, सरकार और उच्चाधिकारियों से की गयी लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया पड़ा। पीठ ने इस मामले में विगत सौमववार को सुनवाई करते हुए निर्देश दिये कि हरिद्वार जिले में की गयी होमगार्ड की भर्ती का परिणाम (चयन) जनहित याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा। आदेश की प्रति आज उपलब्ध हुई है।

भाजपा ने अधीर रंजन की राष्ट्रपति पर टिप्पणी के खिलाफ किया प्रदर्शन



जयपुर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने युवा, महिला और जनजाति मोर्चा के नेतृत्व में लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी के खिलाफ आज यहां प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा सतीश पूर्निया एवं अन्य नेता एवं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन की श्रु चौधरी का पुतला फूंका। ये लोग भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर रैली के रूप में सिविल लाइंस फाटक की तरफ बढ़े और नारेबाजी करके प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। इस अवसर पर डा पूर्निया ने मीडिया से कहा कि श्री चौधरी ने राष्ट्रपति पर इस तरह की टिप्पणी कर देश के संविधान, तिरंगे एवं जनजाति महिला का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि लगाता है कि कांग्रेस के नेता सत्ता में न आने की आशंका के चलते घबराहट में विचलित होकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी देश एवं राजस्थान की जनता बर्बरत नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं वे संविधान को क्या समझेंगे।

कर्नाटक : बीजेपी यूथ विंग नेता की हत्या मामले में दो मुस्लिम युवक गिरफ्तार

मंगलुरु। कर्नाटक में बीजेपी यूथ विंग के नेता प्रवीण नेतारू की हत्या के मामले में पुलिस ने दक्षिण कन्नड़ जिले से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान हावेरी जिले के सावनूर निवासी जाकिर (29) और बेळ्गरे के मोहम्मद शफीक (27) के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि प्रवीण नेतारू की हत्या की साजिश के पीछे दोनों आरोपी शामिल हैं। इससे पहले अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) आलोक कुमार ने जिले के सुलिया तालुक में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले की सभी कोणों से जांच की जा रही है। उन्होंने



बेळ्गरे का दौरा कर मौजूदा स्थिति का जायजा भी लिया। आलोक कुमार ने कहा कि इस हत्या की जांच के लिए मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त और उडुपी पुलिस की मदद से छह टीमों का गठन किया गया है। गौरतलब है कि मंगलवार रात को जिला भाजपा युवा मोर्चा समिति के

कतील की कार को आधे घंटे तक रोक के रखा

बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं और हिंदू कार्यकर्ताओं ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और दक्षिण कन्नड़ से सांसद नलिन कुमार कतील, मंत्री वी सुनील कुमार, एस अंगारा और पुतुर से विधायक संजीव मतादूर के खिलाफ उस समय आक्रोश जताया था जब वे मृतक युवा नेता के घर गए थे। कतील की कार को करीब आधे घंटे तक रोके रखा गया और बाद में पुलिस सुरक्षा में वह निकल पाए। कतील ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति जवाबदेह है और सरकार दोषियों को पकड़ने तथा हत्या की साजिश बेनकाब करने के लिए त्वरित कार्रवाई करेगी।

सदस्य प्रवीण नेतारू (32) की बेळ्गरे में उसकी दुकान के सामने मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता पुतूर के पास बेळ्गरे में ब्रॉयलर की दुकान चलाते थे।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने पंजाब के अहम मुद्दों पर की चर्चा

अमृतसर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सदस्य धन्य कुमार जिनप्पा ने गुरुवार को कहा कि देश में अल्पसंख्यकों के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजाब में एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई, जिसमें इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी है।

के दौरान धन्य कुमार जिनप्पा ने पंजाब में अल्पसंख्यक आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी मांगी। आयोग के सदस्य डॉ सुभाष थोबा ने कहा कि पंजाब अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन प्रो इमैनुअल नाहर की ओर अगुआई में आयोग द्वारा लागूतार अल्पसंख्यकों के लिए कार्य किए जा रहे हैं।

अने वाले समय में प्रो नाहर और सभी सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन से मिलकर पंजाब में आ रही समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करेंगे। धन्य कुमार ने कहा कि यदि कोई सरकारी अधिकारी अल्पसंख्यकों से संबंधित कार्यों को नजरअंदाज करता है, इसकी जानकारी आयोग को दी जाए।

पंजाब पावर कारपोरेशन के बटाला रोड स्थित कार्यालय में बैठक

रेटियों की शायी के लिए उधार पैसे लेने गई महिला के साथ सामुहिक दुष्कर्म

भरतपुर। राजस्थान में भरतपुर के रूपवास थाना क्षेत्र में अपनी दो बेटियों की शायी के लिए ब्याज पर उधार पैसे लेने के लिए गई एक महिला के साथ सामुहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पौडिता ने इस सम्बंध में दो लोगों को नामजब कर पुलिस में मामला दर्ज कराया है। बताया गया है कि आरोपियों ने दुष्कर्म की इस घिनोनी वारदात का मोबाइल से एक वीडियो बना उसे वायरल करने की धमकी देकर और लोगों से अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाया। जब महिला नहीं गई तो आरोपियों ने अपने एक साथी को महिला के घर के बाहर बैठा दिया और हथियार दिखाकर उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया।

एमसीडी चुनाव स्थगित करने को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट 'आप' की याचिका पर 5 अगस्त को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा दायर उस याचिका पर पांच अगस्त को सुनवाई करेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में बाईं के परिसीमा के आधार पर दिल्ली नगर निगमों (एमसीडी) के चुनावों को स्थगित करने को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने केंद्र द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद इस मामले की सुनवाई को पांच अगस्त तक स्थगित कर दिया। जस्टिस ए.एम.



खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से पेश होने वाले वकील लिखित नोट या दलीलें भी दाखिल कर सकते हैं।

गोमुख में बन रही कृत्रिम झील से कोई खतरा नहीं, वाडिया इंस्टीट्यूट करेगा निगरानी : सरकार

नैनीताल। गंगा के उद्गम स्थल गोमुख में कृत्रिम झील और उसके खतरे की आशंका को लेकर राज्य आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विभाग की ओर से गुरुवार को साफ कहा गया है कि गोमुख में कोई झील नहीं बन रही है और उससे खतरे की कोई आशंका नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह बात उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दी गयी रिपोर्ट में कही गयी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन की आशंका एतदी है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को आपदा के लिहाज से नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है जो ऐसे दुर्गम इलाकों की निगरानी करेगी और स्थिति पर नजर बनाये रखेगी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ ने सरकार की दलील सुनने के बाद याचिका को पूरी तरह से निस्तारित कर दिया और आपदा प्रबंधन विभाग को कहा कि वह मई से सितम्बर के मध्य मौके की जांच कर इसकी रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। यहां बता दें कि दिल्ली निवासी अजय गौतम की ओर से 2017 में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया कि गोमुख में एक डेढ़ किमी लंबी झील का निर्माण हो रहा है।

गांधी, बादल परिवार ने अपने राजनीतिक भविष्य की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया : आप

एजेंसी
पाटियां देश के लोगों की रक्षा करने के बजाय अपने पार्टी अध्यक्षों के राजनीतिक भविष्य की रक्षा करने में लगी हुई हैं।
कंग ने कहा कि पूरे देश में केवल आम आदमी पार्टी और उसके सुप्रियो अरविंद केजरीवाल ही लोकतंत्र की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत हैं और मोदी सरकार के हर जनविरोधी नीतियों और फैसलों के खिलाफ हमेशा बुलंदी से सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो केंद्र में मुख्य विपक्षी दल है, ने मोदी सरकार के असंवैधानिक और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा सरकार भारत में तानाशाही शासन चला रही है, जिसके कारण देश में आर्थिक और सामाजिक असमानता काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन कांग्रेस और अकाली दल जैसी

सरलीकरण, निस्तारीकरण और समाधान के मंत्र पर काम किया जाय

देहरादून। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में संघ विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि सरलीकरण, निस्तारीकरण और समाधान के मंत्र पर काम किया जाए। जनता से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक से अधिक सरल किया जाए।



धामी ने कहा कि स्वामित्व अभिलेख के शत-प्रतिशत वितरण के लिए बेरूमालय जाएं। तहसीलदारों को भी स्थाई निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने का अधिकार दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व परिषद, कलेक्ट्रेट एवं कमिश्नर कार्यालय ई-ऑफिस से जोड़े जाएं। साथ ही, सभी जिलाधिकारी महीने में चार बार दूरस्थ क्षेत्रों में बहुदेशीय शिविरों का आयोजन कर स्थानीय लोगों की समस्याओं का निराकरण

सोनिया से पूछताछ के विरोध में युवा कांग्रेस का धरना

जालंधर। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में युवा कांग्रेस ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दफ्तर के समक्ष धरना दिया। कूल रोड स्थित ईडी दफ्तर के बाहर पंजाब युवा कांग्रेस के प्रधान बरिंद्र सिंह दिह्लों, जिला प्रधान शहरों अंगद दत्ता और देहाती इकाई के प्रधान हनी जोशी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार ईडी को निजी हितों के लिए इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजनीतिक रॉजिश के तहत विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है। युवा कांग्रेस के नेताओं के साथ जिला कांग्रेस के प्रधान बलराज ठाकुर और देहाती इकाई के प्रधान दर्शन सिंह टाहली भी मौजूद रहे।

चेस ओलंपियाड से हटा पाकिस्तान, कश्मीर से मशाल गुजरने पर बौखलाया

नई दिल्ली। चेन्नई में गुरुवार से शुरू होने जा रहे 44वें चेस ओलंपियाड से पाकिस्तान ने अपना नाम वापस ले लिया है। दरअसल पाकिस्तान ओलंपियाड की मशाल 21 जुलाई को कश्मीर से होकर गुजरी थी। इसी बात पर भड़ककर पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में भाग न लेने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रेडियो पाकिस्तान पर कहा कि भारत खेल प्रतियोगिता का राजनीतीकरण कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की तरफ से चेस ओलंपियाड में शामिल होने का न्यौता दिया गया था। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इसकी तैयारी भी कराई जा रही थी। बता दें कि पहली बार भारत इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है।

'राष्ट्रपत्नी' पर महिला आयोग ने अधीर रंजन चौधरी को किया तलब, 3 अगस्त को पेशी



नई दिल्ली। 'राष्ट्रपत्नी' वाले बयान को लेकर सदन से सड़क पर हंगामा बरपा हुआ है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस विवाद में सामने आई है। गुरुवार को आयोग ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को नोटिस जारी कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण मांगा। महिला पैनल ने कांग्रेस नेता से व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। इस संबंध में सुनवाई 3 अगस्त को सुबह 11:30 बजे होनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल से कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी के बयान को आड़े हाथों लिया है। अधीर रंजन ने संसद में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू के लिए

चौधरी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था।

महिला आयोग ने किया तलब

अब अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग सामने आया है। अधीर रंजन के बयान का संज्ञान लेते हुए आयोग ने उन्हें आगामी 3 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। अधीर रंजन से मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है और कहा है कि वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। इस संबंध में आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से चौधरी के खिलाफ उचित एक्शन लेने के लिए खत लिखा है।

पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से बर्खास्त किया गया

कोलकाता। पश्चिम बंगाल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में घेरे में आये राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी को उनके सभी विभागों के औचित्य से गुरुवार को मुक्त कर दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक, श्री पार्थ चटर्जी को उद्योग मंत्री और अन्य सरकारी पदों से हटाया गया है। उनके पास सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय मामलों के विभाग की

जिम्मेदारी भी थी। चटर्जी के खिलाफ यह कार्रवाई उनकी एक महिला सहयोगी के टिकनों से 50 करोड़ रुपये से अधिक नगदी और बड़ी तलाद में सोने के आभूषण बरामद होने के बाद की गयी है। श्री चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी इस समय ईडी की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। यह मामला श्री चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहते पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में भारी घोटाले और लेन-देन से जुड़ा है।

विभागात्मगत विविध देयों के वसूली एवं निष्पादन को सुनिश्चित किया जाए।

राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि अपनी सरकार पोर्टल के अंतर्गत राजस्व विभाग की नौ सेवायें एवं एचएलई सेतु एप से इंटीग्रेटेड हैं। सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिष्पठित 15 अतिरिक्त राजस्व विभाग से सम्बन्धित सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। बताया गया कि डीआईएलएमआरपी से इतर सम्पूर्ण प्रदेश की भूमि का आधुनिक विधि से सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। नवीन राजस्व संहिता प्रख्यापित की गई है। राजस्व विभाग की भविष्य की कार्ययोजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि राजस्व

संविधान, महिला और आदिवासी विरोधी है कांग्रेस : संबित पात्रा

शिमला। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस का झाल ही में आया बयान संविधान विरोधी, महिला विरोधी और आदिवासी विरोधी है जहां भारत एक और उत्सव मना रहा और कांग्रेस विरोध कर रही है। पात्रा ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने देश की राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे हैं। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय पत्नी कहा था। पात्रा ने कहा, कांग्रेस का यह बयान संविधान विरोधी, महिला विरोधी और आदिवासी विरोधी है। राष्ट्रपति का कार्यालय एक संवैधानिक पद है और कांग्रेस की टिप्पणी संवैधानिक विरोधी है। कांग्रेस नेता के इस तरह का बयान हमारे देश के संविधान पर हमला है। हमारी राष्ट्रपति एक महिला हैं और इस प्रकार टिप्पणी महिला विरोधी हैं, वह अपने जीवन में एक महान सफल के बाद इस पद पर पहुंची हैं। हमारे राष्ट्रपति एक आदिवासी हैं और इसलिए ये टिप्पणियां भी आदिवासी विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रवर्तन निदेशालय मामले में श्रीमती सोनिया गांधी को बचाने की कोशिश कर रही है। पात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी को राष्ट्र की मां कहती है, कांग्रेस का यह दोहरा चेहरा है। इससे पहले कांग्रेस ने भी भारत के राष्ट्रपति के लिए 'ईविल फिलॉसफी' शब्द का इस्तेमाल किया था। गांधी को देश से माफो मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ही श्री चौधरी को इस तरह के बयानों के लिए निर्देश दिए हैं।

शार्ट न्यूज

राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्काउट्स ट्रेनिंग कैम्प का शुभारम्भ



नांगल चौधरी। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के तीन दिवसीय प्रवेशिका कैम्प का शुभारंभ हुआ। इस तीन दिवसीय कैम्प का शुभारंभ करते हुए विद्यालय के प्राचार्य विक्रम सिंह ने बताया कि हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स का ट्रेनिंग जीवन को अनुशासित ढंग से जीने की कला सिखाती है। इसके अतिरिक्त बच्चों को विभिन्न कैम्पों के माध्यम से दूसरी संस्कृतियों, भाषाओं और रहन सहन से अवगत कराती है। इस प्रवेशिका कैम्प के पहले दिन जिला ट्रेनर सुनीता बाई ने बच्चों को स्काउटिंग चिह्न, स्काउटिंग क्लैप, सेल्यूट, लेट हेड मिलाने, जंगल में गुप्त होने पर एक दूसरे को कैसे खोजें और ध्वज को फहराने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। बच्चों ने सुरुचिपूर्ण ढंग से पहले दिन के कैम्प में ट्रेनिंग ली। प्राचार्य विक्रम सिंह ने बताया कि तीन दिन चलने वाले इस कैम्प के अंतिम दिन समापन समारोह पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कैम्प में मुख्य रूप से डीओसी सुनीता, डीपी रमेश सोनी, डीपी अशोक कुमार मुक्त्यारसिंह, देवेन्द्र कुमार एवं समस्त स्टाफ विशेष सहयोगी के तौर पर उपस्थित रहे।

एनएचपीसी द्वारा नूंह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में दूसरे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन



नूंह। एनएचपीसी लिमिटेड की सीएसआर पहल के तहत नूंह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के ग्रामीणों के स्वास्थ्य और प्रतिक्रमा को बढ़ाने के उद्देश्य से बिन्नीली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा 28 जुलाई 2022 को दूसरे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। एनएचपीसी सीएसआर पहल के तहत इस प्रकार के छह स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने निर्धारित हैं, जिसमें यह दूसरा शिविर था। शिविर में रक्ताल्पता, मधुमेह और उच्च रक्तचाप पर ध्यान केंद्रित करते हुए, डॉक्टरों और तकनीशियनों को एक टीम ने 151 लोगों को विभिन्न प्रकार की जांच की। रक्त, बीपी, ईसीजी, ऑक्सिजन सेचुरेशन लेवल, आंखों आदि की जांच भी इस शिविर में की गई। शिविर में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कम लागत वाले पोषण और संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त शिविर में दवाएं, पोषाहार पूरक, इम्युनिटी बूस्टर पैक और फेस मास्क आदि का वितरण भी किया गया। इस दौरान लोगों को कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया गया।

भारत में अवैध रूप से रह कर तस्करी कर दे दे विदेशी नागरिक, दो गिरफ्तार

नई दिल्ली। भारत में अवैध रूप से रह रहे दो विदेशी नागरिकों को 27 जुलाई को शाम द्वाकाली पुलिस की एएटीएस टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने मोहन गार्डन इलाके से गिरफ्तार दोनों विदेशियों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी भारत में लंबे समय से रहकर ड्रग्स तस्करी के काम में लगे हुए थे। दोनों अपने दोस्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में होने वाली पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एएटीएस ईचार्ज इस्पेक्टर कमलेश कुमार, इस्पेक्टर विकास यादव की टीम द्वारा इलाके में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को जानकारी जुटा रही थी। पुलिस टीम को पता चला कि मोहन गार्डन इलाके में दो विदेशी मामुजो जेम्स अतिथर और एंथनी ओब्रेगन रहते हैं। दोनों तस्करी के काम से जुड़े हुए हैं। पुलिस टीम ने छापा मार कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के पास देश के रहने के लिए वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे। एंथनी ओब्रेगन घाना का रहने वाला है और मामुजो जेम्स नाइजीरिया का। दोनों के देश संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल दोनों डिटेंशन सेंटर भेज दिया है।

थाना फेस 1 पुलिस ने एक अभियुक्त को अवैध असलहे के साथ किया गिरफ्तार

नोयडा। थाना फेस 1 पुलिस ने गुरुवार को ई- 44 सेक्टर 8 नोएडा से एक अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र तेजवीर प्रसाद निवासी आर सी 685 वन्दना इन्कलेव खोडा कालोनी गाजियाबाद मूल पता सराय दाउद थाना बलदेव जनपद मथुरा को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा तीन सौ पन्द्रह बोर मय एक कारतूस जिन्दा बरामद किया है। अभियुक्त शांति किस्म का अपराधी है। जिसके विरुद्ध पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है।

रबूपुरा पुलिस ने श्रावण मास शिवरात्रि मेले में आने वाले मत्कों के गले से चैन चोरी करने वाली तीन महिला चोरों को किया गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा। थाना रबूपुरा पुलिस ने नानकेश्वर मन्दिर भाईपुर ब्रह्मानाम मेले में आने वाले मत्कों के गले से चैन चोरी करने वाली तीन महिला अभियुक्तों को कान्ती पत्नी सन्तोष निवासी प्रकाश कालोनी थाना कैम्प जिला पलवल हरियाणा, भारती पत्नी प्रेम सिंह निवासी प्रकाश कालोनी थाना कैम्प जिला पलवल हरियाणा, श्यामा पत्नी चरन सिंह उर्फ पम्पू निवासी प्रकाश कालोनी थाना कैम्प जिला पलवल हरियाणा को ग्राम मेहेन्द्रपुर की तरफ से आते हुए बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई महिला अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने शिवमन्दिर पर जल चढ़ाने के लिये लाईन में लगी महिलाओं के गले से सोने की चोरी की गयी दो चैन और चोरी करने में प्रयुक्त एक स्टील की कैंची बरामद की है। गिरफ्तारयुक्त तीनों महिला अभियुक्त शांति किस्म की अपराधी है। जिसके द्वारा अन्ध मेलों एवं धार्मिक स्थलों से इसी प्रकार के कई घटनाएँ किये जाने का जुर्म इकटाल किया गया है जिसके सम्बन्ध में अन्य थानों व जनपदों से जानकारी की जा रही है। जिनके विरुद्ध पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है।

वीजा समाप्ति के उपरान्त अवैध रूप से वास कर रहे पांच चीनी नागरिक गिरफ्तार

ग्रेटर नोयडा। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा बीजा अवैध स्थलाह होने के उपरान्त अवैध रूप से वास कर रहे विदेशी नागरिकों को अवैध गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत अभी तक चार चीनी नागरिक, एक कोरियन नागरिक एवं 18 अफ्रीकी मूल के नागरिकों को अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने के कारण गिरफ्तार कर जिला कारागार गौतमबुद्धनगर भेजा गया। और 27 चीनी नागरिकों को 27 जुलाई 2022 तक बीजा समाप्ति के उपरान्त अवैध रूप से स्थानीय स्तर पर निवास किये जाने के कारण पुलिस अधीनस्थों में लेकर डिटेन्शन सेंटर नई दिल्ली उनके विरुद्ध उद्घासन की कार्यवाही किये जाने हेतु भेजा जा चुका है।

चार अगस्त को दिल्ली के हजारों बच्चे इकट्ठे होकर बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा

देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, इन 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए? : अरविंद केजरीवाल

प्रफुल्ल राय/गौरवशाली भारत

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि आगामी चार अगस्त को दिल्ली के हजारों बच्चे इकट्ठे होकर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे और हम 130 करोड़ भारतवासी भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने के लिए संकल्प लेंगे। उन्होंने कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए? अगर इन नेताओं और इन पार्टियों के भरोसे देश को छोड़ दिया, तो अगले और 75 साल देश पीछे रह जाएगा। इसलिए आइए, आजादी के 75वें वर्ष में हम प्रण लें कि हम 130 करोड़ भारतवासी एकजुट होकर भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। सीएम श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 75 साल पहले जब सारा देश इकट्ठा हुआ था तो हमने अंग्रेजों को भगा दिया था।



अब हम सब एक बार फिर इकट्ठे होकर भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पूरा देश आजादी के 75 वर्ष बना रहा है। हर भारतवासी देश भक्ति में डूबा है।

4 अगस्त को दिल्ली में हजारों-हजार बच्चे इकट्ठे होंगे और दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे और उस दिन संकल्प लेंगे कि अब भारत रूकेगा नहीं, अब भारत थमेगा नहीं, अब हम 130 करोड़ भारतवासी मिलकर भारत

को दुनिया का नंबर वन देश बनाएंगे। सीएम श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 साल में कई देश हम से आगे निकल गए। हम पीछे क्यों रह गए? हम किसी से कम तो नहीं हैं। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। नदियां, पहाड़, खनिज पदार्थ, जड़ी बूटियां, फसलें, समुद्र सब कुछ भगवान ने दिया है। भारत के लोग दुनिया में सबसे बुद्धिमान हैं और सबसे मेहनती हैं। फिर भी हम पीछे क्यों रह गए हैं? अगर इन नेताओं और इन पार्टियों के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले और 75 साल देश पीछे रह जाएगा।

सीएम श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब देश के 130 करोड़ लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आइए, आजादी के 75वें वर्ष में हम प्रण लें कि हम भारत के 130 करोड़ लोग एक साथ मिलकर, एकजुट होकर भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे

शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि कैन इंडिया लीड द वेल्थ, क्यों नहीं। आपको क्या लगता है। क्यों नहीं भारत विश्व का नंबर वन बन सकता है। लेकिन इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। भारत के 130 करोड़ लोगों को साथ आना होगा। व्यापारी, किसान, उद्योगपति, मजदूर, नौकरी पेशा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सबको के साथ आना होगा। 75 साल पहले जब सारा देश इकट्ठा हुआ था, तो हमने अंग्रेजों को भगा दिया था अब हम सब एक बार फिर इकट्ठे होकर भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे।

केजरीवाल सरकार व आईआईटी दिल्ली द्वारा नए रोड मार्किंग के साथ लेन ड्राइविंग को बढ़ावा देने व सड़कों को सुरक्षित बनाने का पायलट प्रोजेक्ट रहा सफल

पायलट प्रोजेक्ट से मिले अनुभवों पर आगे काम करते हुए इसे पूरी दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के अधीन सड़कों पर लागू करने का कठेय काम

आनंद राय/गौरवशाली भारत

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित व यातायात को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। दिल्ली में सरकार द्वारा लेन ड्राइविंग को बढ़ावा दे रही है साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधीन आने वाली सभी सड़कों पर नए सिरे से मार्किंग करने का काम कर रही है। इस दिशा में पिछले दिनों सरकार द्वारा आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर राजा गार्डन से ब्रिटानिया चौक के बीच 4.5 किमी रोड स्टूच पर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। गुरुवार को उपमुख्यमंत्री व पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री मनीष सिंसोदिया व परिवहन मंत्री श्री कैलाश महलोल ने इस पायलट फेज के नतीजों को जानने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पायलट फेज के नतीजे काफी शानदार रहे हैं। उन्होंने बताया कि



पायलट फेज में राजा गार्डन से ब्रिटानिया चौक के बीच 4.5 किमी रोड स्टूच पर नए तरीके से रोड मार्किंग की गई जहाँ बस लेन का अच्छे से निर्धारण किया गया व लेन ड्राइविंग को भी इनफोर्स किया गया। इसका नतीजा यह रहा कि इस पूरे स्टूच में नई मार्किंग के बाद यहाँ चलने वाले बसों की रफ्तार 17 से 23 प्रतिशत तक बढ़ गई और यात्रा में लगने वाले समय में कमी आई। साथ ही यहाँ यह भी देखा गया कि नई मार्किंग के साथ बसों लेन के उल्लंघन के मामलों में 54 प्रतिशत तक कमी आई है। इस मौके पर सिंसोदिया ने कहा

किया जाएगा। लेन ड्राइविंग पर चर्चा करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री मनीष सिंसोदिया ने कहा कि सड़कों को सुरक्षित बनाने और ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए लेन ड्राइविंग का पालन करना बेहद जरूरी है। सरकार दिल्ली में भी लेन ड्राइविंग के नियमों को प्रतिबद्धता से लागू करने का काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि अपने लेन में ही ड्राइविंग करना सभी लोगों को आदतों में शामिल नहीं है लेकिन लोग इसके प्रति जागरूक होना शुरू हो चुके हैं और जल्द ही इन नियमों का पालन करना शुरू कर देंगे।

बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से बसों के लिए लेन इंफोर्समेंट ड्राइव की भी शुरुआत की गई है। साथ ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बस लेन में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो।

लैपटॉप पर सुसाइड नोट लिखकर, गाना सुनते हुए छात्रा ने की आत्महत्या

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के ओखला स्थित आईआईआईटीडी में बीटक प्रथम वर्ष की छात्रा ने 26 जुलाई को शाम आठ बजे के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा ने आत्महत्या से पहले लैपटॉप पर सुसाइड नोट लिखा था और कमरे में अंग्रेजी गाने चलाए हुए थे। छात्रा के साथ रहने वाली एक अन्य छात्रा ने वहां तैनात महिला सुरक्षाकर्मी को आत्महत्या की जानकारी दी। जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले में छात्रा की सोडीआर की मदद से जांच कर रही है।

मौत तोड़ कर किया गया प्रवेश

मौके पर पुलिस ने पाया कि छात्रा के कमरे का गेट हथौड़े से तोड़ा गया था और कमरे में सुरक्षाकर्मी मंजू तिवारी, मृतका के साथ रहने वाली छात्रा, प्रबंधन कर्मचारी, संस्थान के चिकित्सक मौजूद थे। पुलिस टीम ने पंखे से छात्रा को उतार कर अस्पताल पहुंचाया। जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।

हिन्दुस्तानी मर्कटाइल असोसिएशन के 129वें अधिवेशन में कपड़ा व्यापारियों ने लिया भाग

नई दिल्ली। दिल्ली हिन्दुस्तानी मर्कटाइल असोसिएशन के 129वें अधिवेशन में तमाम कपड़ा व्यापारियों ने भाग लिया। असोसिएशन के वाइस प्रेजिडेंट श्रीभगवान बंसल ने बताया कि अधिवेशन में चांदनी चौक के कपड़ा कारोबारियों ने सौदर्यकरण के बाद पैदा हुई व्यापारिक मुश्किलों पर गंभीरता से चर्चा की। अभी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चांदनी चौक की मुख्य बज्ज पर मोटर वाइकल चलाने पर रोक है। इससे दुकानदार, बिजनेसमैन, कर्मचारियों के साथ खरीदारों को भी बाजार में पहुंचने से दिक्कत होती है। पार्किंग भी दूर-दूर है। लॉडिंग-अनलोडिंग की समस्या का पृथक् समाधान नहीं निकला है। इससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। मीटिंग में जीएसटी के मौजूदा प्रावधानों पर भी ट्रेडर्स ने चिंता व्यक्त की। मौजूदा समय



में रिटर्न फाइल करना आसान नहीं है। कारोबारियों को कागजी कार्यालय में काफी उलझा दिया है। अधिवेशन की अध्यक्षता वरिष्ठ उपप्रधान शिवशंकर मिश्र ने की। महामंत्री मुकेश सचदेवा ने असोसिएशन की एक रिपोर्ट पढ़ी। प्रोग्राम में कक्षा 10 और 12वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। असोसिएशन की ओर से गौतम गुप्ता

हमारा मुख्य ध्येय दिल्ली वासियों की सेवा करना: उपराज्यपाल

विवेक राय/गौरवशाली भारत

नई दिल्ली। उपराज्यपाल श्री बी.के. सक्सेना ने जिलाधिकारियों के साथ हाल ही में हुई बैठक के दौरान अन्य विभागों-एजेंसियों के अधिकारियों के साथ उनके समन्वय और सक्रिय सहयोग पर बल देते हुए उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में मुख्य सचिव और मंडल आयुक्त भी मौजूद थे।

सक्सेना ने जोर देकर कहा कि सभी विभागों, चाहे वह राजस्व विभाग हो या दिल्ली नगर निगम अथवा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, हर का मुख्य ध्येय दिल्ली वासियों की सेवा करना है। इस उद्देश्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सभी विभाग एवं एजेंसियों जैसे राजस्व विभाग, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, और उनसे संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय के साथ

नगर निगम में परिसीमन के बाद घट जाएंगे वार्ड, 4 महीने में पूरा होगा काम

एजेंसी

नई दिल्ली। नगर निगम के नए परिसीमन के बाद 22 वार्ड कम होंगे यानी दिल्ली में सिर्फ 250 वार्ड रह जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परिसीमन समिति को वार्ड की संख्या वाला आदेश भी भेज दिया है। परिसीमन की प्रक्रिया को चार महीने में पूरा किया जाएगा। गुरुवार को समिति ने आगे की कार्ययोजना तय करने लिए बैठक बुलाई है।

राज्य चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परिसीमन के हिसाब से वार्ड की संख्या तय होने के बाद सोमवार को समिति की पहली बैठक हुई थी। इसमें तय हुआ कि वर्ष 2011 की जनगणना में दिल्ली की आबादी का नतीजा में रखकर ही वार्ड का परिसीमन किया जाएगा। उस समय दिल्ली की आबादी 1.67 करोड़ थी। सभी विभागों से जरूरी आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से दिल्ली के पोलिंग स्टेशन की संख्या व लोकेशन की जानकारी मांगी गई है। जनगणना से संबंधित आंकड़े समेत जीएसडीएल (भू-

स्थानिक दिल्ली लिमिटेड) से विधानसभा वार्ड मैपिंग रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

अधिकारी ने बताया कि सभी विभागों से डाटा मिलने के बाद कार्ययोजना तैयार होगी। इसके लिए अलग-अलग टीम बनाई जाएगी जो कि क्षेत्र का सर्वे करेगी। केंद्र सरकार ने बोटे 9 जुलाई को राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव के अध्यक्षता में दिल्ली नगर निगम के परिसीमन करने के लिए समिति का गठन किया था।

1958 में अस्तित्व में आया था निगम-दिल्ली नगर निगम अप्रैल 1958 में अस्तित्व में आया था। इस दौरान 11 स्थानीय निकायों और एक दिल्ली जिला बोर्ड का विलय करके नगर निगम का गठन किया गया था। नगर निगम में वर्ष 1958 से 67 तक केवल 80 वार्ड थे। वर्ष 1967 में वार्डों की संख्या 100 कर दी गई। इसके बाद वर्ष 1997 में वार्डों की संख्या बढ़कर 134 की गई और वर्ष 2007 में वार्डों की संख्या 272 तक पहुंच गई। वर्ष 2011 में नगर निगम का विभाजन करके तीन निगमों का गठन किया गया। तीनों निगमों में भी वार्डों की संख्या 272 रखी।

स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में 3 तरह के हमलों का अलर्ट, पीओके में साजिश और ट्रायल

एजेंसी
लिए पीओके में ड्रोन से निशाना लगाने का अभ्यास कर रहे हैं।
2. दूसरा अलर्ट है कि आतंकी मेटल डिटेक्टर को चकमा देने वाले साँफ्रिस्टिकेटेड आईआईटी का इस्तेमाल कर बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं।
3. तीसरे अलर्ट में आतंकीयों का एक जत्था पीओके में कोलिल (केओटीओईएल) नाम के लॉन्चिंग पैड से जबकि दूसरा पीओके में डाउटे (डीएटीओटीई) नाम के लॉन्चिंग पैड से घुसपैठ कर दिल्ली पहुंचाने की फिराक में होने का जिक्र है।
संदिग्ध चीजों पर खास नजर अलर्ट
1. पहला अलर्ट ड्रोन अटैक कर तबाही मचाने का है। खुफिया अलर्ट में जिक्र किया गया है कि आतंकी इसके

डिफ्यूज करने में भी ज्यादा सावधानी बरतें। क्वीक साँफ्रिस्टिकेटेड आईआईटी मेटल डिटेक्टर को भी चकमा दे सकता है। इसलिए जो पुलिसकर्मी मेटल डिटेक्टर पर तैनात हैं वो भी खास सावधानी बरतें और सही से जांच करें।

अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

आकाशीय हमले का खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ड्रोन हमले की आशंका के मद्देनजर पूरी सावधानी बरती जा रही है। हवा में उड़ने वाली चीजों पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर है। ड्रोन हमले की आशंका के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने हवा में उड़ने वाली चीजों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

सूची, विलम्ब के कारण सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
घ. जिलाधिकारियों को डार्क स्पॉट, जो कि अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देती है, चिन्हित करने को कहा गया और पुलिस के सहयोग से आवश्यक कार्रवाई कर इनका समाधान करने को कहा गया।
ड. जिलाधिकारियों को नियमित रूप से जलभराव वाले स्थानों की पहचान और वहां पर कचेरी ड्रिपिंग को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई एवं उनके समाधान के निर्देश दिये

च. उनको यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए कि अवैध कालोनियों से यमुना नदी में किसी भी प्रकार गिरने वाले सेप्टिक टैंकों के मलबों के बहाव को रोका जाए।
छ. कृषि भूमि के अवैध प्लॉटिंग एवं बिजली की पुरानी समस्या का हवाला देते हुए उपराज्यपाल ने जिला अधिकारियों को इस पर सख्त

कार्य करें। इस संबंध में उपराज्यपाल ने बैठक में उपस्थित सभी जिला अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिये:-

क. उपराज्यपाल ने जिलाधिकारियों को फोल्ड में उपस्थित रहकर अपने-अपने संबंधित जिलों में स्वच्छता की स्थिति को नियमित निगरानी करने को कहा।
ख. अतिक्रमण की गंभीर समस्या के विषय में उन्होंने जिलाधिकारियों को अतिक्रमण की शिकायतों पर नियमित, त्वरित व सक्रिय रूप से कार्रवाई कर उनका तुरंत समाधान करने के भी निर्देश दिए।
ग. उपराज्यपाल ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी जिलाधिकारियों को भूमि की बिजली/हस्तांतरण हेतु, एनओसी के लिए लम्बित सभी आवेदनों की एक

शार्ट न्यूज़

नेस्ले का तिमाही राजस्व बढ़कर 40.4 अरब रुपये

मुंबई। खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाली कंपनी नेस्ले का कैलेंडर वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही में राजस्व वार्षिक आधार पर 16.1 प्रतिशत बढ़कर 40.4 अरब रुपये रहा। इस दौरान कंपनी कि घरेलू बिक्री में 16.4 प्रतिशत और निर्यात में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि इस तिमाही में उसका सकल मार्जिन 3.04 प्रतिशत घटकर 54 प्रतिशत पर आ गया। सकल मार्जिन में गिरावट प्रमुख रूप से दूध, ईंधन, अनाज और हरी कॉफी के दाम बढ़ने से आयी है। नेस्ले का परिचालन लाभ (एबिटेड) 1.8 प्रतिशत बढ़कर 8.5 अरब रुपये रहा जबकि परिचालन लाभ 2.95 प्रतिशत घटकर 21 प्रतिशत पर रहा। इस दौरान कंपनी का समायोजित शुद्ध लाभ 3.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 5.5 अरब रुपये रहा।

बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का तिमाही शुद्ध लाभ 24 प्रतिशत बढ़ा

नयी दिल्ली। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का वित्त वर्ष 2022–23 की पहली तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर 24 प्रतिशत बढ़कर 969 करोड़ रुपये रहा जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 779 करोड़ रुपये था। कंपनी ने गुरुवार को तिमाही परिणामों में बताया कि आलोच्य तिमाही में उसका एकल आधार पर शुद्ध लाभ में गिरावट दर्ज की गयी। इस तिमाही में यह 43 करोड़ रुपये रहा जो वित्त वर्ष 2021–22 की समान अवधि में 49 करोड़ रुपये था।

वेदांता लिमिटेड ने तिमाही में कमाया 5,592 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ

मुंबई। खनन क्षेत्र में कार्य करने वाली वेदांता लिमिटेड का वित्त वर्ष 2022–23 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ वार्षिक आधार पर छह प्रतिशत बढ़कर 5,592 करोड़ रुपये रहा। इससे पिछले वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 5,282 करोड़ रुपये था। वेदांता ने गुरुवार को जारी तिमाही परिणामों में बताया कि इस दौरान कंपनी समेकित राजस्व 38,251 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। यह वित्त वर्ष 2021–22 की पहली तिमाही से प्राप्त किए गए राजस्व 28,105 करोड़ रुपये से 36 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का परिचालन लाभ (एबिटेड) सात प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10,741 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। यह अबतक का सर्वश्रेष्ठ तिमाही परिचालन लाभ है। इस दौरान कंपनी का परिचालन लाभ मार्जिन बढ़कर 32 प्रतिशत रहा। वेदांता ने जुलाई 2022 में 19.5 रुपये प्रति शेयर का लाभांश देने की घोषणा की है। इससे पहले कंपनी ने अप्रैल 2022 में 31.5 रुपये प्रति शेयर का लाभांश देने की घोषणा की थी। वेदांता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील दुगल ने कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने विश्व स्तरीय परिसंचयित्यों और व्यापार मॉडल को ताकत के साथ वित्त वर्ष 2022–23 की शुरुआत की है। पहली तिमाही में 10,741 करोड़ रुपये के परिचालन लाभ और 5,592 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ के साथ हमने सर्वश्रेष्ठ तिमाही प्रदर्शन किया है। इस वर्ष हमारी प्रमुख प्राथमिकता प्रतिबद्ध मात्रा, वृद्धि के लिए परियोजनाओं का समय पर निष्पादन, मूल्यवर्धन, लंबवत एकीकरण एवं हमारे प्रमुख व्यवसायों में लागत में कमी और सक्रिय जिंसों के मूल्य को लेकर जोखिम प्रबंधन पर होगी।

सोना 624 और चांदी 2415 रुपये महंगी

मुंबई। अमेरिकी फेड रिजर्व के अगले महीने से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी करने के संकेत से वैश्विक बाजार में कीमती धातुओं में आई तेजी की बदौलत आज घरेलू सर्राफा बाजार में सोना 624 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 2415 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोना हाजिर 0.85 प्रतिशत की तेजी लेकर 1748.64 डॉलर प्रति औंस हो गया। इसी तरह अमेरिका सोना वायदा 1.76 प्रतिशत की छलांग लगाकर 1749.30 डॉलर प्रति औंस हो गया। इस दौरान चांदी हाजिर 2.54 प्रतिशत उछलकर 19.62 डॉलर प्रति औंस बोली गई। विदेशी बाजारों की तेजी का असर देश के सबसे बड़े वायदा बाजार एमसीएक्स में भी देखा गया। इस दौरान सोना 624 रुपये की तेजी लेकर 51344 रुपये प्रति दस ग्राम और सोना मिनी 591 रुपये चढ़कर 51313 रुपये प्रति दस ग्राम पर रही। इसी तरह चांदी 2415 रुपये महंगी होकर 57259 रुपये प्रति किलोग्राम और चांदी मिनी 2212 रुपये चमककर 57725 रुपये प्रति किलोग्राम बोली गयी।

टीवीएस का तिमाही शुद्ध लाभ पांच गुना बढ़ा

नयी दिल्ली। टीवीएस मोटर कंपनी का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर पांच गुना बढ़कर 321 करोड़ रुपये रहा जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में सिर्फ 53 करोड़ रुपये था। कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि इस दौरान उसका संचालन राजस्व 6,009 करोड़ रुपये रहा जो अब तक किसी भी तिमाही में प्राप्त हुए राजस्व से सर्वश्रेष्ठ है। वित्त वर्ष 2021–22 की पहली तिमाही में कंपनी का राजस्व 3,934 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2022–23 की पहली तिमाही में कंपनी का परिचालन लाभ (एबिटेड) 599 करोड़ रुपये रहा जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 274 करोड़ रुपये था। इसी तरह कंपनी का परिचालन लाभ मार्जिन 10 प्रतिशत पर पहुंच गया जो कि इससे एक वर्ष पूर्व की समान अवधि में साथ प्रतिशत था। कंपनी ने कहा कि आलोच्य तिमाही में उसने कुल 9.07 लाख दोपहिया और तिपहिया वाहन बेचे जबकि वित्त वर्ष 2021–22 की पहली तिमाही में कंपनी ने 6.58 लाख वाहन बेचे थे।

रुपये में 22 पैसे की तेजी

मुंबई। दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के मजबूत होने के बावजूद घरेलू शेयर बाजार में तुफानी तेजी और रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से समर्थन पाकर आज अंतरराष्ट्रिय मुद्रा बाजार में रुपया 22 पैसे की तेजी लेकर 79.69 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी दिवस रुपया 13 पैसे लुढ़ककर 79.91 रुपये प्रति डॉलर पर रहा था। शुरुआती कारोबार में रुपया 11 पैसे की बढ़त लेकर 79.80 रुपये प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान बिकवाली की बदौलत यह 79.64 रुपये प्रति डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया लेकिन लिवाली के दबाव में 79.85 रुपये प्रति डॉलर के निचले स्तर तक लुढ़क गया। अंत में पिछले सत्र के 79.91 रुपये प्रति डॉलर की तुलना में 22 पैसे मजबूत होकर 79.69 रुपये प्रति डॉलर पर रहा। विश्लेषकों के अनुसार, दूसरी तमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की गति में सुधार होने से फेडरल रिजर्व के अनुमान के अनुसार तेज रफ्तार से ब्याज दरों में वृद्धि नहीं करने के संकेत से दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर मजबूत हुआ। इससे रुपये पर दबाव बनना चाहिए था लेकिन संसेक्स और निफ्टी में आई तुफानी तेजी चार्ज रिजर्व बैंक के गिरते रुपये को सहारा देने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के इस्तेमाल की तैयारी के संकेत से भारतीय मुद्रा को समर्थन मिला है।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 29 सितंबर से प्रगति मैदान में

नयी दिल्ली। देश में दूरसंचार और उसके उपकरणों पर आधारित इंडिया मोबाइल कांग्रेस के छठें संस्करण का आयोजन इस वर्ष 29 सितंबर से एक अक्टूबर के दौरान राजधानी के प्रगति मैदान किया जायेगा। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज यहां संबंदादाता सम्मेलन में यह घोषणा करते हुये कहा कि इस वर्ष मोबाइल कांग्रेस का थीम ' न्यू डिजिटल युनिवर्स ' है। इसमें स्टार्टअप पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा 5 जी के क्रियान्वयन पर पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही आईओटी, रोबोटिक्स, गेमिंग, ड्रोन और मेटावर्स पर भी फोकस किया गया है। इसका आयोजन दूरसंचार विभाग और दूरसंचार क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के शीर्ष संगठन सीओएआई मिलकर कर रहा है। कोरोना महामारी के कारण पिछले दो संस्करण ऑनलाइन हुये थे लेकिन इस वर्ष फिर से इसका आयोजन फिजिकली किया जा रहा है। इसमें करीब 70 हजार से अधिक दर्शकों के आने और सात हजार से अधिक सीएक्सओ स्तर के प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। इस दौरान 60 से अधिक सत्रों का आयोजन किया जायेगा जिसमें 300 से अधिक वक्ता भाग लेंगे।

पुराने टेलीकॉम कानूनों में होगा व्यापक बदलाव, हितधारक दे विचार : वैष्णव

एजेंसी

नयी दिल्ली। केन्द्रीय संचार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि पुराने टेलीकॉम कानूनों के स्थान पर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुये नये कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की गयी है जिसमें सभी हितधारकों को अपने विचार देने चाहिए।

श्री वैष्णव ने आज रात यहां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 की घोषणा के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि वर्ष 1885, 1930और 1950 के पुराने कानूनों में व्यापक बदलाव की जरूरत है क्योंकि अभी के समय और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कानून बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार क्षेत्र में एक नयी कानूनी संरचना की



आवश्यकता पर एक परामर्श पत्र तैयार किया है। परामर्श पत्र हितधारकों से विचार आमंत्रित किये गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2022 है। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों ने भी इसमें बढ़चढ़कर सुझाव देने की अपील की और कहा कि जो आप अभी निवेश कर रहे हैं आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है क्योंकि देश अभी 5 जी के साथ ही 6जी की ओर भी बढ़ रहा है। लोगों की

भारत-मिस्र ने सालाना व्यापार पांच वर्ष में 12 अरब डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा

नयी दिल्ली। भारत और मिस्र के बीच काहिरा में पिछले दिनों हुई सम्पन्न आधिकारिक स्तर की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को पांच साल में 12 अरब डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया।

भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति और भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद की पांचवी बैठक 25–26 जुलाई तक काहिरा में आयोजित की गयी। इन बैठकों का आयोजन क्रमशः तीन और छह साल के अंतराल के बाद किया गया।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव डॉ. श्रीकर के रेड्डी के नेतृत्व में इन बैठकों के लिए गए भारत के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मिस्र को भी भारत के राजदूत अजीत गुप्ते के साथ मिस्र की व्यापार और उद्योग मंत्री नेविन गामिया से 26 जुलाई को काहिरा

तीसरे दिन 5 जी स्पेक्ट्रम नीलामी में लगी 1.50 लाख करोड़ रुपये की कुल बोली

नयी दिल्ली। देश में यथाशीघ्र 5 जी सेवा शुरू करने के लिए जारी स्पेक्ट्रम नीलामी के तीसरे दिन कुल मिलाकर कंपनियों ने 1.50 लाख करोड़ रुपये की बोली लगायी है।

संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज यहां यह घोषणा करते हुये कहा कि कंपनियों ने जिस तरह से बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया है वह काबिले तारीफ है। आज कुल मिलाकर 16चक्र की बोलियां संपन्न हुयी हैं जिसमें कुल मिलाकर 149454 करोड़ रुपये की बोली लगायी गयी है। नीलामी अभी जारी है। इस नीलामी में मुख्य रूप से रिलायंस जियो,

भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और अदानी समूह शामिल है। अदानी समूह प्राइवेट नेटवर्क के लिए 5जी स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए बोली लगा रहा है।

कंपनियां 5जी नेटवर्क मिलने के बाद इस साल के अंत तक या अगले वर्ष के प्रारंभ में देश में 5 जी सेवाएं शुरू कर सकती हैं। 5जी नेटवर्क 4जी नेटवर्क की तुलना में कम से 10 गुना तेज होगा।

5जी सेवाओं के लिए सरकार ने 600 मेगाहर्ट्ज, 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500 मेगाहर्ट्ज जैसे निम्न बैंड की रेडियोतरंगों और सी बैंड

जरूरतों में बदलाव आया है और लोगों ने प्रौद्योगिकी को बड़ी तेजी से अपनाया शुरू कर दिया है। भारत में दूरसंचार के लिए कानूनी संरचना उन कानूनों द्वारा शासित होती है, जिन्हें भारत के

स्वतंत्र होने से बहुत पहले बनाया गया था। हाल के दशकों में प्रौद्योगिकी काफी विकसित हुई है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाने

ने पांच वर्षों के भीतर प्राप्त करने के लिए 12 अरब डॉलर का वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है।

मिस्र में भारतीय कंपनियों ने 3.15 अरब डालर का निवेश कर रखा है। इस क्षेत्र में मिस्र भारत के लिए सबसे बड़े निवेश स्थलों में से एक है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार के साथ-साथ परस्परिक रूप से लाभप्रद निवेश दोनों को बढ़ाने के लिए फोकस के कई क्षेत्रों की पहचान की। इनमें खाद्य, कृषि और समुद्री उत्पाद, ऊर्जा विशेष रूप से अक्षय ऊर्जा जिसमें हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और पेट्रोकेमिकल, एमएसएमई, इंजीनियरिंग सामान, विनिर्माण, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, पर्यटन आदि शामिल हैं।

दोनों पक्षों ने दोनों देशों के लिए सहमत हुआ।

इसके अलावा, फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में सहयोग के संदर्भ में, मिस्र पक्ष ने भारत में संबन्धित एजेंसी के साथ तकनीकी चर्चा शुरू करने पर सहमति व्यक्त की।

बयान के मुताबिक 26 जुलाई 2022 को संयुक्त व्यापार परिषद (जेसीसी) की पांचवीं बैठक उद्योग मंडल और मिस्र की वाणिज्यिक सेवाओं द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई।

तोमर ने ग्यारहवीं कृषि संगणना का किया उद्घाटन

नयी दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि संगणना से भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश में व्यापक लाभ होगा। देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही उनका जीवन स्तर बदलने, छोटे किसानों को संगठित कर उनकी ताकत बढ़ाने, उन्हें महंगी फसलों की ओर आकर्षित करने तथा उपज की गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप करने पर जोर दिया जा रहा है। तोमर ने गुरुवार को देश में ग्यारहवीं कृषि संगणना (2021–22) का उद्घाटन किया।

कार्यक्रम में श्री तोमर ने कृषि संगणना के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित गए टोस कर्मों का प्रतिफल कृषि क्षेत्र को मिल रहा है। हमारा देश तेजी से डिजिटल कृषि की ओर बढ़ रहा है। यह समय इस संगणना में तकनीकी भाग्य उभारोण करने का है। उन्होंने कहा कि कृषि संगणना को लेकर आगे और व्यापक फलक पर सोचना चाहिए। कृषि संगणना फसलों

वी-गार्ड का पहली तिमाही में राजस्व 80 प्रतिशत बढ़ा

एजेंसी

कोच्चि। इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनी वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में संचालन से समेकित शुद्ध राजस्व 80 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,018 करोड़ रुपये रहा जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 565.18 करोड़ रुपये था।

कंपनी ने गुरुवार को एक बयान

पड़ा है और यह दूसरी तिमाही के कुछ हिस्से को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा, प्रमुख जिंसों की कीमतों में उनके उच्चतम दाम से कीमत हल्की पड़ी हैं लेकिन यह अभी भी औसत से अधिक हैं। इससे उपभोक्ता वस्तुओं में कीमतों में और बढ़ोतरी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।

हम उम्मीद करते हैं कि अगली एक या दो तिमाहियों में सकल मार्जिन अपने मानक स्तर तक ठीक हो जाएगा।

दो घंटे में 150 वॉल्वो एक्ससी 40 रिचार्ज इलेक्ट्रिक कारें बिकी

नयी दिल्ली। लक्जरी यात्री वाहन बनाने वाली प्रमुख कंपनी वॉल्वो कार इंडिया के पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन एक्ससी 40 रिचार्ज को ग्राहकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली है और इस वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बिक्री के लिए पेश की गयी 150 कारें मात्र दो घंटे में बिक गयीं।

कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर बुकिंग की शुरुआत के 2 घंटे के भीतर ही पूरे वर्ष 2022 के लिए कारों की बुकिंग पूरी हो गई। अक्टूबर महीने से डिलीवरी की शुरुआत की जाएगी, और इसके बाद कंपनी ने दिसंबर 2022 के अंत तक 150 एक्ससी 40 रिचार्ज कारों को ग्राहकों तक पहुंचाने की योजना बनाई है।

कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि भारत के लक्जरी कार सेगमेंट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 घंटे के बेहद कम समय में इतनी बुकिंग हुई है।

एक्ससी 40 रिचार्ज की बुकिंग केवल ऑनलाइन माध्यम से सीधे तौर पर वॉल्वो कार्स की आधिकारिक वेबसाइट पर की जा सकती है, जिसमें कंपनी को अपने बिजनेस पार्टनर्स को सहयोग मिला है जो पूरे भारत में वाहनों की खरीद के बाद की सुविधाएं उपलब्ध करने तथा डिलीवरी का काम संभालेंगे। कंपनी आगे की डिलीवरी के लिए ग्राहक के ऑर्डर लेना जारी

संसेक्स और निफ्टी में दो प्रतिशत की उछाल


मुंबई। अमेरिकी फेड रिजर्व के ब्याज दरों में 0.76 प्रतिशत की वृद्धि करने से यूरोपीय बाजार में आई गिरावट के बावजूद स्थानीय स्तर पर निवेशकों की चौरफा लिवाली से आज संसेक्स और निफ्टी करीब दो प्रतिशत उछल गए। बीएसई का तीस शेरों वाला संवेदी सूचकांक संसेक्स 1041.47 अंक की तुफानी तेजी लेकर 56 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के पर 56857.79 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 287.80 अंक की छलांग लगाकर 26629.60 अंक पर पहुंच गया। इसी तरह बीएसई का मिडकैप 0.94 प्रतिशत मजबूत होकर 23,811.48 अंक और स्मॉलकैप

शेरों में 2.19 प्रतिशत की लिवाली हुई। फेडरल रिजर्व की बुधवार को समाप्त दो दिवसीय बैठक में अमेरिका में आसमान छूती महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरों में 0.75 प्रतिशत की वृद्धि कर दी लेकिन उसने कहा कि अगले महीने से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी रहेगी। इससे ब्रिटेन का एफटीएसई 0.17, जर्मनी का डैक्स 0.16 और हांगकांग का हैंगसेंग में 0.23 प्रतिशत गिर गया वहीं जापान का निक्केई 0.36 और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.21 प्रतिशत मजबूत रहा। कारोबार की शुरुआत में संसेक्स 451 अंक की तेजी लेकर 56,267.55 अंक पर खुला लेकिन मामूली बिकवाली से यह थोड़ी देर बाद ही

जेनारा फार्मा को फाइजर की कोविड दवा को बनाने की सीडीएससीओ से मिली स्वीकृति

हैदराबाद। बायोफोर इंडिया फार्मास्यूटिकल्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जेनारा फार्मा ने गुरुवार को बताया कि उसे निर्माट्रिलवीर और रिटोनवीर दवाइयों के कॉम्प्ली पैक के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) से मंजूरी मिल गयी है। इसका उपयोग कोविड-19 के हल्के लक्षण वाली मरीज के लिए उपचार के विकल्प के रूप में किया जाएगा। फार्मा कंपनी ने एक बयान में कहा कि इन दवाइयों को पैक्सजेन नाम के ब्रांड तले बेचा जाएगा जिसका

उत्पादन जेनेरा की हैदराबाद स्थित अमेरिका एफडीए से स्वीकृत एक सुविधा में किया जाएगा। सीडीएससीओ द्वारा यह स्वीकृति देश में रोगियों के लिए कोविड-19 के एक प्रभावी और सस्ती चिकित्सा की आवश्यकता को देखते हुए आपातकालीन प्राधिकरण मार्ग के तहत दी गयी है। जेनेरा फार्मा के सह-संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक जदगीश बाबु रंगशेट्टी ने कहा, 9% हमें विश्वास है कि कोविड-19 के खिलाफ पैक्सजेन उपचार का एक प्रभावशाली विकल्प



भंडार कोष का लाभ उठा सकते हैं। इसमें राशि को चुकाने की अवधि 60-75 दिनों की होगी और बैंक उच्च मांग वाले चरणों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सीमाएं भी प्रदान करेगा जिसका लाभ विक्रेता एक वर्ष में तीन बार ले सकते हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स

लिमिटेड के नेटवर्क प्रबंधन और ईवी बिक्री के वरिष्ठ महाप्रबंधक रमेश दोराइरजन ने कहा, हम अपने अधिकृत इलेक्ट्रिक यात्री वाहन डीलरों के लिए इस विशेष वित्त पोषण कार्यक्रम के लिए एक्सिस बैंक के साथ जुड़कर बेहद उत्साहित हैं। हमारे डीलर देश में व्यापक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को आपनाने की हमारी यात्रा में हमारे साथ हैं। हम सकाराल्मक हैं कि यह पहल हरित गतिशीलता के लक्ष्य को प्राप्त करने और देश में गतिशीलता क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने के हमारे दृष्टिकोण का समर्थन करेगी।

हल्के से मध्यम कोविड-19 के उपचार के लिए इसके इस्तेमाल के संकेत दिखें थे। यह खाने वाली पहली दवाई थी जिसे यूएस एफडीए द्वारा मंजूरी दी गयी थी। जेनेरा फार्मा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ श्रीनिवास अश्वला ने कहा, हम अगले कुछ हफ्तों में पैक्सजेन को पेश करने की उम्मीद कर रहे हैं और यह देश में जनसंख्या मरीजों के लिए इसकी आसानी से उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कई संस्थानों और अस्पतालों से बातचीत कर रहे हैं।

शार्ट न्यूज

फ्रांस के मक्काओं बने टी20 अंतर्राष्ट्रीय में लगातार दो शतक लगाने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी

पेरिस। फ्रांस के 18 वर्षीय सलामी बल्लेबाज गुस्ताव मक्कां दो दिन के भीतर दूसरी बार टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक्स में शामिल हुए, जब उन्होंने नॉर्वे के विरुद्ध 53 गेंदों पर 101 रन बनाए और इस तरह पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार मैचों में शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। मक्कां और फ्रांस की टीम फिनलैंड में 2024 टी20 विश्व कप के यूरोप क्षेत्र के क्वालिफाइंग मुकाबलों में भाग ले रही है और उन्होंने इससे पहले स्विट्जरलैंड के विरुद्ध शतक लगाकर पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे युवा शतकवीर बनने का कीर्तिमान अपने नाम किया था। 18 साल और 280 दिन के मक्कां ने अफगानिस्तान के हज़रतउल्लाज़ जुज़ई का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो आयरलैंड के विरुद्ध सैंकड़ा जड़ते वक़्त 20 साल और 337 दिन की उम्र के थे। मक्कां ने इसके साथ एक और कीर्तिमान स्थापित किया और वह है किसी भी पुरुष क्रिकेटर द्वारा पहली तीन टी20 अंतर्राष्ट्रीय पारियों के बाद सर्वाधिक रन। उनके खाते में अब 286 रन हैं और उन्होंने अजहर अंडानी का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने पिछले साल पुर्तगाल के लिए खेलते हुए अपनी पहली तीन पारियों में 46, 100 और 81 के स्कोर के साथ 227 रन बनाए थे। वहीं इस मुकाबले में मक्कां बल्ले से अपने कारनामों से खुश नहीं थे।

यूएई में होगा एशिया कप, श्रीलंका करेगा मेजबानी

कोलंबो। एशियाई क्रिकेट परिषद ने कहा है कि श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट के कारण एशिया कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में होगा, जबकि मेजबानी के अधिकार श्रीलंका के पास ही रहेंगे। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, श्रीलंका में एशिया कप की मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास किया गया था। बहुत सौच विचार के बाद आयोजन स्थल को यूएई में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। यूएई नया स्थल होगा जबकि श्रीलंका मेजबानी के अधिकार बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा, एशिया कप का यह संस्करण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एशियाई देशों को आईसीसी विश्व कप के लिए तैयार करने में मदद करेगा, और मैं एसएलसी और अमीरात क्रिकेट बोर्ड को उनकी समझ और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका को सौंपी गयी थी, लेकिन कोरोना के कारण पहले यह आयोजन 2021 के लिये और फिर 2022 के लिये स्थगित कर दिया गया। अंततः श्रीलंका के आर्थिक संकट के कारण इसे यूएई में स्थानांतरित किया गया है जहां यह 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच खेला जाएगा।

बंगाल अंडर-25 के कोच बने प्रणव रॉय

कोलकाता। बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) ने भारत के पूर्व ऑलराउंडर लक्ष्मी रतन शुक्ला को 2022-23 सत्र के लिये राज्य की वरिष्ठ क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त करने के बाद पूर्व बल्लेबाज प्रणव रॉय को अंडर-25 टीम का कोच नियुक्त किया है। सीएबी अध्यक्ष अविषेक डालमिया ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, वह (प्रणव रॉय) अपने समय के उत्कृष्ट क्रिकेटर हैं। वह राज्य की प्रतिभा को समझते हैं और युवा खिलाड़ी उनसे प्रेरणा लेते हैं। हम विश्वास है कि वह अच्छे प्रदर्शन देंगे। क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी प्रणव रॉय के बेटे प्रणव रॉय ने 80 के दशक की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए दो टेस्ट खेलकर 71 रन बनाए थे। प्रणव ने अपनी नियुक्ति के बारे में कहा, मुझे यह मौका देने के लिए मैं अविषेक डालमिया और स्नेहाशिष गांगुली को धन्यवाद देता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं अंडर-25 टीम में अंतर लाने और उन्हें अगले स्तर पर ले जाने में सक्षम रहूँगा। मैं बंगाल क्रिकेट की सेवा करने के इस मौके का स्वागत करता हूँ।

पटना पाइरेट्स ने अपने विशिष्ट खिलाड़ियों को रिटेन किया

पटना। प्रो कबड्डी के तीन बार के चैंपियन (पीकेएल 3, 4 और 5) पटना पाइरेट्स ने अगले पीकेएल सीजन 9 के लिए रिटेन किए गए स्टार खिलाड़ियों की अपनी सूची की घोषणा की है। पाइरेट्स ने इस साल के नए कबड्डी सीजन के लिए अपने एलीट खिलाड़ियों को रिटेन किया है। मोहम्मदरेज़ा शादलौई चियानेह (डिफेंडर), नीरज कुमार (डिफेंडर), मोनु (रेडर) और साजिन चंद्रशेखर (डिफेंडर) एक बार फिर पाइरेट्स की डिफेंस और रैडिंग यूनिट में ताकत जोड़ेंगे, जिसने उन्हें पिछले सीजन के रोमांचक फाइनल में क़ूज बना दिया था। टीम ने न्यू यंग प्लेयर कैटेगरी से रोहित (रेडर) और मनीष (डिफेंडर) को भी रिटेन किया है। पटना पाइरेट्स के मुख्य कोच रवि शेठ्टी ने कहा, खिलाड़ियों को रिटेन करना पटना पाइरेट्स का एक मजबूत और स्थिर आग्रह बनाने के लिए टीम की रणनीति को दर्शाता है। सीजन 8 में खेले गए अधिकांश मैच करीबी मुकाबले में थे, जिससे पता चलता है कि इस बार भी प्रतियोगिता का स्तर काफी ऊंचा होगा। हाल ही में पाइरेट्स ने पीकेएल सीजन 9 के लिए रवि शेठ्टी को अपना नया मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा की थी। यह चैंपियन के लिए टीम को रिटेन करना पाइरेट्स का एक मजबूत पक्ष। पीकेएल सीजन 9 के लिए 12 टीमों अपने दल बनाना शुरू कर देंगे। पीकेएल के पिछले सीजन के सभी स्कॉड खिलाड़ियों सहित गैर-रिटेन किए गए खिलाड़ी, 5-6 अगस्त, 2022 को मुंबई में मेगा नीलामी में शामिल होंगे।

बर्मिंघम में ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए भारतीय खिलाड़ी

बर्मिंघम। राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह से एक शाम पहले कई भारतीय एथलीटों ने खेल गांव में भारतीय दल के ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लिया। बर्मिंघम में भारतीय टीम के प्रमुख राजेश भंडारी ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के कार्यवाहक अध्यक्ष अजित खन्ना एवं अन्य को उपस्थिति में तिरंगा फहराया। भारतीय महिला एवं पुरुष हॉकी टीम सहित कई अन्य खिलाड़ी भी संगीत में तल्लीन इस समारोह में मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में राष्ट्र की परेड में भारतीय दल से अधिकतम 164 प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं, जहां शीर्ष शटलर पीवी सिंधू और पुरुष हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह दल के ध्वजवाहक होंगे। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 215 एथलीटों और 107 अधिकारियों एवं सहायक कर्मचारियों सहित 322-सदस्यीय दस्ते को बर्मिंघम भेजा है। भारतीय खिलाड़ी 15 खेलों के साथ-साथ पैरा स्पोर्ट्स श्रेणी के चार खेलों में हिस्सा लेंगे। भारतीय टीम अपने गोल्ड कोस्ट 2018 राष्ट्रमंडल खेल प्रदर्शन में सुधार करना चाहेगी, जहां यह पावरहाउस ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद तीसरे स्थान पर रही थी।

100 तक नहीं पहुंचा इसको झेल पाना थोड़ा मुश्किल है : गिल

पोर्ट ऑफ स्पेन। प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज बने भारतीय ओपनर शुभमन गिल ने कहा कि वह 100 तक नहीं पहुंचे इसको झेल पाना थोड़ा मुश्किल है। गिल ने तीसरे मैच के बाद कहा, मैं 100 की उम्मीद कर रहा था। लेकिन यह मेरे हाथ में नहीं था क्योंकि बारिश हो गई थी, पर मैं अपनी पारी से खुश हूँ। मैं निराश इससे था कि किस तरह से पहले दो मैचों में आउट हो गया। मैं स्ट्राइक बदलने की कोशिश कर रहा था। बारिश के ज़ेक के बाद मैं चाहता था कि एक और ओवर मिल जाए, विकेट अच्छा था, मैंने सोचा था कि मैच को आगे ले जाया जा सकता है। आज 98 रन बनाने के साथ ही गिल ने कुल मिलाकर 208 रन इस सीरीज में बनाए हैं जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। भारतीय कप्तान शिखर धवन ने कहा, गिल के लिए बुरा लगता है लेकिन यह होता है कई बार, लेकिन जिस तरह से उसने जवाब दिया है काबिलेताताफ है। हमारे लक्ष्ये युवा है लेकिन अनुभवी हैं। उन्हें मुश्किलों से निपटाना आता है। मैं अपनी फॉर्म से खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि कैसे 50 को 100 में बदला जाता है। पहले मैच में मैंने 97 रन बनाए, लेकिन आज भी मैं सही था। मैंने रिस्क लिया और रन रेट को बनाए रखा। मैं अपने गेंदबाजों से भी खुश हूँ, सिराज, अक्षर, चहल, शार्दूल सभी ने अपना सौ प्रतिशत दिया।

भारत के युवा खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव झेलना काफी आसान हो गया है: धवन

पोर्ट ऑफ स्पेन। वनडे सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान रहे शिखर धवन ने टीम के युवा खिलाड़ियों की परिपक्वता की काफी तारीफ की है। सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 3-0 से हरा दिया। धवन के अनुसार यह भारतीय युवा खिलाड़ियों की परिपक्वता का फल हुआ है। उसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव को झेलना उनके लिए काफी आसान हो गया है। युवा खिलाड़ियों ने गेंद और बल्ले के साथ काफी बढ़िया प्रदर्शन किया। वे काफी अनुशासित थे। वे भावनाओं में नहीं बह रहे थे, लेकिन अपनी समझ का इस्तेमाल कर रहे थे। यह हम सभी के लिए एक बड़ी बात है। सीरीज में लगभग सभी बल्लेबाजों के योगदान से धवन खुश थे। शुभमन गिल ने तीन पारियों में 205 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने दो अर्धशतकों के साथ 163 रन बनाए, जबकि संजू सैमसन और अक्षर पटेल ने भी महत्वपूर्ण अर्धशतक बनाए। धवन ने यह भी कहा कि ऑलराउंडर दीपक हड्डु को गेंद से इस्तेमाल करने की योजना ने इतना अच्छा काम किया कि उन्होंने तीसरे वनडे में उन्हें पहला

ओवर दे दिया। धवन ने कहा, अगर आप बल्लेबाजी इकाई की बात करें तो सभी ने रन बनाए हैं – शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, संजू, अक्षर जैसे सभी खिलाड़ियों ने बढ़िया प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी इकाई के लिए इससे बेहतर संकेत नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वे सभी युवा हैं। इसलिए इंग्लैंड दौरे के बाद इन परिस्थितियों में खेलना, चाहे पहले बल्लेबाजी करना हो या लक्ष्य का पीछा करना, या पहले दो मैच जीतने के बाद तीसरे गेम में उसी धैर्य के साथ खेलना, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। श्रृंखला से पहले हम जानते थे कि दीपक एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकता है। जिस तरह से उसने

पहले मैच में गेंदबाजी की उससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। वह पांच ओवर के बजाय सात-आठ ओवर भी फेंक सकता था। उसने केवल बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ ही नहीं बल्कि उन्होंने दाएं हाथ के बल्लेबाजों को भी अच्छी गेंदबाजी की। तीसरे मैच में हमने सोचा कि तेज गेंदबाजों के लिए विकेट पर अधिक स्विंग नहीं थी। इसलिए हमने सोचा कि ऑफ स्पिनर काम कर सकता है और उन्होंने पहला ओवर मैनड डाट दिया। नियमित सलामी बल्लेबाज रोहित और राहुल की अनुपस्थिति में, कप्तान धवन के लिए श्रद्धांज गायकवाड़, ईशान किशन और गिल के बीच में से किसी

एक खिलाड़ी का चयन करना था। उन्होंने गिल को चुना और वह प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। धवन ने कहा, उसके पास बहुत अच्छी तकनीक है और वह एक उत्तम दर्जे का खिलाड़ी है। मुझे लगता है कि उसमें रोहित का स्पर्श है। वह उसी तरह का बल्लेबाज है। उसके पास बहुत समय है। यह देखकर अच्छा लगा कि उसने आज 98 रन बनाए हैं। वह जानता था कि अपने अर्धशतक को 90 में कैसे बदलना है। हम दोनों ने तीन मैचों में दो शतकीय साझेदारी की। यह एक बहुत अच्छा संकेत है। जिस तरह से हमने पहले दस ओवरों में उनके गेंदबाजी आक्रमण को संभाला, वह वास्तव में अच्छा था।

ओलंपिक 2024 में पहली बार स्थापित होगा 'इंडिया हाउस'

एजेसी मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आइआईएल) और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने एक दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है जिसके तहत रिलायंस राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और ओलंपिक खेलों सहित प्रमुख बहु-खेल आयोजनों में भारतीय एथलीटों का समर्थन करेगा। इस साझेदारी के तहत, आरआईएल और आईओए पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस भी स्थापित करेंगे। रिलायंस ने बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ओलंपिक हाउस खेलों की परंपरा है और 2024 ओलंपिक में भारत का ओलंपिक हाउस बनना एक ऐतिहासिक घटना होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की निदेशक और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य नीता एम अंबानी ने कहा, भारत को वैश्विक खेल क्षेत्र में केंद्र स्तर पर देखना हमारा सपना है। आईओए के साथ हमारी साझेदारी

मेघना कोविड से उबरकर भारतीय दल के साथ जुड़ने के लिए तैयार

मुम्बई। भारतीय बल्लेबाज एस मेघना कोविड संक्रमण से पूरी तरह उबर चुकी हैं और शुक्रवार तक बर्मिंघम में मौजूद भारतीय राष्ट्रमंडल खेल दल के साथ जुड़ जाएंगी। ऐसा समाज्ञा जा रहा है कि बुधवार को मेघना ने अपने कार्डिओवैस्कुलर (हृदय संबंधी) टेस्ट क्लियर किए और इसके तुरंत बाद उन्होंने इंग्लैंड जानी वाली पहले फ्लाइंग पर भेज दिया गया। अपने पहले मैच में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से शुक्रवार को

अनुमति दो निगेटिव कोविड टेस्ट आने और अनिवार्य फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही मिल सकेगी। पूजा के लिए रविवार से पहले भारत से बाहर जाने के कोई आसार नहीं हैं और इसका मतलब है वह आगले बुधवार बारबेडोस के विरुद्ध ऑक्सफ़ोर्ड लीग मैच से पहले के लिए नहीं खेल सकेगी। अब तक बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। अध्यक्ष सौरव गांगुली ने

खिलाड़ियों का नाम लिए बिना बताया था कि भारतीय दल में कोविड केस हुए थे। भारत का खेमा सोमवार को बर्मिंघम के लिए रवाना हुआ था और उसके एक दिन बाद भारतीय ओलंपिक संघ के एक अधिकारी ने दो पॉजिटिव केस की पुष्टि की थी। भारतीय टीम ने अब तक बर्मिंघम में दो अभ्यास सेशन रखे हैं। इससे पूर्व उन्होंने 10 दिनों का कैम्प में हिस्सा लिया था जहां क्रिकेट कौशल के अलावा फिटनेस पर ध्यान रखा गया।

वर्षाबाधित मैच जीतकर भारत ने किया वलीन स्वीप

पोर्ट ऑफ स्पेन। भारत ने शुभमन गिल (98 नाबाद) और युजवेंद्र चहल (17 रन पर चार विकेट) की बदौलत वेस्ट इंडीज को तीसरे एकदिवसीय मैच में 119 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। यह कैरिबियन में रनों के मामले में भारत की वेस्ट इंडीज पर सबसे बड़ी जीत है। भारत ने बुधवार को खेले गये वर्षाबाधित मैच में 36 ओवर में 225 रन बनाये थे, जिसके बाद डकवर्थ लुइस नियम के तहत विंडीज के सामने 35 ओवर में 257 रन का लक्ष्य था। वेस्ट इंडीज इसके जवाब में 137 रन पर ऑल आउट हो गयी। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी।

कप्तान शिखर धवन और शुभमन गिल ने श्रृंखला में दूसरी बार शतकीय साझेदारी की। 113 रन की साझेदारी के बाद धवन 58(74) रन बनाकर पवेलियन लौट गये। उन्होंने अपनी पारी में सात चौके लगाये। इसके बाद क्रीज पर आये श्रेयस अय्यर ने गिल के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन मैच के 25वें ओवर में बारिश हो गयी। जब मैच को पुनः शुरू किया गया तो भारतीय बल्लेबाजों ने रनों की रफ्तार भी बढ़ाई। दोनों के बीच 89 रन की साझेदारी हुई, जिसके बाद अय्यर 34 गेंदों पर चार चौकों और एक छक्के की

गर्त में जा रहा चीन का रियल एस्टेट, एशिया की सबसे अमीर महिला की संपत्ति हुई आधी

एजेसी नई दिल्ली। ऐसा लग रहा है कि चीन का रियल एस्टेट सेक्टर वाकई में गर्त में जा रहा है। इसकी बागनी हाल ही में तब देखने को मिली है जब एशिया की सबसे अमीर महिला के रूप में शुमार यांग हूईयान ने अपनी आधे से अधिक संपत्ति खो दी है। इस मामले में जो आंकड़े सामने आए हैं वे काफी चौंका देने वाले हैं। इससे चीन के भविष्य में होने वाले संकट की आहट भी सुनाई दे रही है। दरअसल, ब्लूमबर्ग की बिलियनर्स इंडेक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बारे में विस्तृत जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को जारी हुई अरपतियों की इंडेक्स में यह

कंपनी के स्टॉक में 15 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। जब कंपनी ने ऐलान किया कि वो पैसे जुटाने के लिए नए शेयरों की बिक्री करेगी। कंपनी ने कर्ज चुकाने के लिए 34 करोड़ डॉलर से ज्यादा रकम जुटाने की योजना बनाई है। जिसके लिए नए शेयर जारी करने का ऐलान किया है। स्टॉक में इस गिरावट से यांग की संपत्ति में भी गिरावट आई है। यह भी बताया गया है कि यांग को यह दौलत उनके पिता से मिली थी। साल 2005 में उन्होंने अपने शेयर यांग को ट्रॉंसफर कर दिए थे। केंद्री गार्डन के फाउंडर यांग गोउकियांग यांग हूईयान के पिता थे। उन्होंने साल 2005 में अपने शेयर उन्हें ट्रॉंसफर कर दिए थे। उस समय एक सरकारी मीडिया ने यह

ईरान में बाढ़, भूस्खलन से पांच की मौत

तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान में बाढ़ और भूस्खलन से गुरुवार को कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई तथा नौ अन्य घायल हो गए। इरानियन स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी (आईएसएन) ने रेड क्रिसेंट सोसाइटी का हवाला देते हुए जानकारी दी। सोसाइटी के उपाध्यक्ष मूर्तजा मोरादी ने बताया कि रेड क्रिसेंट बचाव दल की दस टीमों लापता लोगों को ढूँढने का प्रयास कर रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, शहर में बुधवार रात से लगातार भारी वर्षा के दौरान तेहरान के उत्तर पश्चिम हिस्सों में अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन होने से, यहां एक धार्मिक तीर्थस्थल इमामज्जादे वादू को भी क्षति पहुंची। रेहमार के पश्चिम और दक्षिणी हिस्सों में जलभराव के कारण कीचड़ जमा हो गया। सोसाइटी के प्रबंध निदेशक शाहीन फाती ने बताया कि यहां के सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और बचाव दल, रैपिड रिस्पांस ऑपरेटिव सहित, बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं।

जापान में मंकीपॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि

टोक्यो। जापान में मंकीपॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है। जापानी मीडिया रिपोर्ट में गुरुवार को यह जानकारी सामने आयी है। समाचार एजेंसी क्योडा के मुताबिक मंकीपॉक्स से संक्रमित व्यक्ति की उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच है। वह हाल ही में विदेश से टोक्यो लौटा है। मंकीपॉक्स से संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसके जीवन को कोई अभी कोई खतरा नहीं है। उल्लेखनीय है कि जापान में कुछ दिन पहले मंकीपॉक्स का पहला मामला सामने आया था। इस वायरस से संक्रमित होने से पहले व्यक्ति कुछ दिन पहले विदेश से स्वदेश लौटा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 23 जुलाई को मंकीपॉक्स के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया।

आईएस की संख्या बढ़कर छह हजार हुई

काबुल। अफगानिस्तान में पिछले साल तालिबान के सत्ता में आने के बाद से इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन के सदस्यों की संख्या तीन गुणा बढ़कर छह हजार हो गई। रूसी विदेश मंत्रालय के एशियाई विभाग के दूसरे प्रमुख ज़मीर काबुलुव ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, जहां तक हम समझते हैं, उनकी अनुमानित संख्या छह हजार तक पहुंच गई है। अगर आपको याद हो, तालिबान के सत्ता में आने और आईएस के खिलाफ सख्त कदम उठाने के बाद उनकी संख्या लगभग दो हजार के आसपास थी। श्री काबुलुव ने रूसिया सेगोदर्या अंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, यानी लगभग तीन गुना वृद्धि। यह अफगान स्थिति के विकास का सबसे नकारात्मक पक्ष है, क्योंकि आईएस, पहले की तरह, न केवल अफगानिस्तान, बल्कि उसके पड़ोसियों को भी अस्थिर करने के लिए घातक है।

अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से फिलीपींस ने रूसी हेलिकॉप्टर सौदा रद्द किया

मनीला। फिलीपीन सरकार ने संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से 16 रूसी सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर खरीदने के सौदे को रद्द कर दिया है। खलिज टाइम्स ने फिलीपीन के अधिकारियों के हवाले से गुरुवार को यह जानकारी दी। इससे पहले पूर्व रक्षा मंत्री डेलफिन लोरे-जाना ने कहा कि उन्होंने पिछले महीने एमआई-17 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 12.7 अरब-पैसो के सौदे को रद्द कर दिया था। गत 30 जून को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले तत्कालीन राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने इस सौदे को अनुमोदित किया था। उन्होंने कहा कि हम प्रतिबंधों का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा रूस के साथ अमेरिका के लिए पृथ्वी के चायूमंडल में फिर से प्रवेश करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अभ्यास के सवाल पर सकारात्मक हैं। अंतरिक्ष इंजीनियरिंग कार्यक्रम के अनुसंधान और विकास चरण से ही इसे मलबे के शमन और कक्षा से लौटने के लिए विचार के साथ बनाया गया है।



सेहत और सौन्दर्य का रक्षाक भुद्ध

दुरुस्त करता पाचन

कॉर्न में फाइबर यानी भरपूर रेशो होते हैं. ये रेशो भोजन को पचाने के लिए जरूरी है. यह कब्ज और पेट में होने वाले कैंसर की आशंका को कम करता है.

प्रचुर मात्रा में खनिज

कॉर्न के दानों में भरपूर मिनरल्स पाये जाते हैं. इसमें आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर के अलावा फॉस्फोरस भी पाया जाता है. ये तत्व हड्डियों के लिए जरूरी हैं. इन तत्वों से हड्डियां मजबूत होती हैं. इसका सेवन किडनी को भी मजबूत करता है.

त्वचा को बनाता है चमकदार

कॉर्न लंबे समय तक त्वचा को कांतिमय रखने में मददगार होता है. एंटीऑक्सीडेंट्स की

प्रचुरता के अलावा इसके तेल में लिनोलिक एसिड होता है.

एनीमिया से करता है बचाव

मछें में आयरन होता है. आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है और इसके कारण लाल रक्त कणों की संख्या घट जाती है. मछें में विटामिन-बी और फोलिक एसिड मौजूद होते हैं जो एनीमिया होने से बचाव करते हैं.

कंट्रोल करता है कोलेस्ट्रॉल

कोलेस्ट्रॉल ऐसा पदार्थ है, जो बढ़ने पर नुकसाद पहुंचाता है. कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल (एचडीएल) और बैड कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल).

कोलेस्ट्रॉल में फेटी फूड आते हैं जो हमारे दिल को कमजोर बनाते हैं. स्वीट कॉर्न में विटामिन-सी होते हैं जो हमारे दिल को स्वस्थ

रखते और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं. कॉर्न में प्रचुर मात्रा में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कैंसर होने के कारणों को रोकते हैं. कॉर्न में विटामिन-बी भी होता है जो तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने में मददगार है. कॉर्न उन डायबिटीज पीड़ितों के लिए जरूरी है, जो इंसुलिन नहीं लेते. कॉर्न उनके डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं. मकई में मौजूद कैरोटेनोइड आंखों की ज्योति बढ़ाने के साथ ही विटामिन ए भी उपलब्ध कराता है. मकई के दानों यानी भुट्टों को पकाकर भी खाया जाता है. इससे जहां दांतों की बेहतर एक्सरसाइज होती है, वहीं यह पेट को ठीक करता है.

सौंदर्य का साथी

कई तरह के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बनाने में कॉर्न स्टार्च का प्रयोग किया जाता है. साथ ही,

भुद्ध जिसे कॉर्न या मकई सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. कई खतरनाक रोगों से रक्षा तो करता ही है सौंदर्य को भी बरकरार रखता है. भुद्ध जिसे कॉर्न और मकई भी कहा जाता है, का प्रयोग तरह-तरह के व्यंजन बनाने में किया जाता है. यह ऐसा अनाज है जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. मकई का आटा कोलोन कैंसर के खतरों को कम करता है.

इसका प्रयोग त्वचा की जलन और रेशों को कम करने के लिए भी किया जाता है. कैंसरकारी पेट्रोलियम उत्पाद जो कि कई तरह के कॉस्मेटिक्स को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है अब इनके स्थान पर कॉर्न के उत्पाद का प्रयोग किया जाने लगा है.

सावधान कैल्शियम की कमी खतरनाक

हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम जरूरी है. इसकी कमी ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन जाता है. सभी जानते हैं कि मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम जरूरी है. कैल्शियम कोलोन (मलाशय) से विषैली चीजों को बाहर निकालने में मदद करने के साथ ही यह हमारी तंत्रिका तंत्र के लिए भी जरूरी है. अगर किसी कारण में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो यह ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनता है. एक नये अध्ययन के अनुसार, इस आवश्यक मिनरल की कम मात्रा लेने से आपको हाइपर पैराथायराइडिज्म (पीएचपीटी) जो एक तरह की हार्मोनल कंडीशन है, हो सकती है. अगर समय रहते इसका इलाज न किया गया तो आपकी हड्डियों का कैल्शियम सूख सकता है. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के इस अध्ययन में पाया गया कि जो महिलाएं फल और सब्जियों के जरिये ज्यादा कैल्शियम ग्रहण करती हैं उनमें पीएचपीटी, जो पैराथायराइड हार्मोन के अनियंत्रित रिसाव का कारण होता है, होने का खतरा कम हो जाता है. आप अपने भोजन और दूसरी सामग्री में कैल्शियम की मात्रा को थोड़ी सावधानी से बढ़ा सकते हैं.



सॉफ्ट ड्रिंक कम - अत्यधिक मात्रा में फास्फोरस के कारण सॉफ्ट ड्रिंक शरीर के कैल्शियम ग्रहण करने की क्षमता में बाधा डालता है. साथ ही, पिज्जा, चिप्स या दूसरे सॉल्टी फूड्स के साथ सॉफ्ट ड्रिंक के सेवन से भी कैल्शियम अवशोषण में बाधा पहुंचती है क्योंकि इससे बढ़ा हुआ कैल्शियम यूरिन के जरिये नष्ट हो जाता है. साग-सब्जी का सेवन ब्रोकली, सलाद पत्ता, पत्ता गोभी और दूसरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम का अच्छा स्रोत हैं लेकिन समस्या यह है कि हरी सब्जियों में पाया जाने वाला कैल्शियम डायटी उतपाद की तुलना में शरीर में आसानी से अवशोषित नहीं हो पाता क्योंकि इनमें कैमिकल लगा होता है. हालांकि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि आप अपनी डाइट में ज्यादा कैल्शियम नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स से पाते हैं. इसके लिए आप कैल्शियम से भरपूर कॉम्बिनेशन जैसे पालक या सलाद पत्ता को तिल या बीन्स (जो कैल्शियम का बेहतर स्रोत है) और चीज के साथ ले सकते हैं. विटामिन-डी भी जरूरी हड्डियों की सेहत के लिए विटामिन-डी बेहद जरूरी है और इसका कैल्शियम के साथ सह-क्रियाशीलता का संबंध है.

धूप - विशेषज्ञों के अनुसार, सूर्य के दौरान विटामिन-डी की कमी के कारण हम 2 से 4 प्रतिशत बोन डेंसिटी खो देते हैं. इस बात का विरोध करते हुए कई एक्सपर्ट्स अब इस बात की सलाह देते हैं कि दिनभर में 15 मिनट धूप में बिताने से हमारे शरीर को विटामिन-डी को प्राकृतिक रूप से बनाने में मदद मिलती है.

कॉफी कम - कॉफी का अत्यधिक सेवन करने से कैल्शियम उत्सर्जन की दर बढ़ने के कारण हड्डियां कमजोर हो सकती हैं. इसलिए इस खतरों से बचने के लिए दिनभर में केवल दो कप कॉफी पियें. उच्च प्रोटीन से सावधान- जिनकी डाइट में एनीमल प्रोटीन ज्यादा होता है, वास्तव में उनकी हड्डियों से कैल्शियम का क्षरण होने लगता है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि प्रोटीन ऐसे तत्वों को तोड़ता है जो एसिडिक होते हैं और हमारे शरीर में मौजूद कैल्शियम उन्हें जमा करता जाता है. अगर आप अत्यधिक रेड मीट और अंडे का सेवन करते हैं तो आपको ज्यादा मात्रा में कैल्शियम लेने की जरूरत है.

मधुमेह से बचना है तो जी भर कर सोएं

अगर आप भरपूर नींद लेते हैं तो आप में टाइप-2 मधुमेह होने का जोखिम काफी कम हो जाता है. यह एक नये अध्ययन में दावा किया गया है. लास एंजेलिस बायोमैडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि सप्ताहांत में तीन रात की अच्छी नींद काफी हद तक इंसुलिन की सक्रियता बढ़ा देती जिसके न बनने और शरीर पर उसकी प्रतिक्रिया नहीं होने से यह बीमारी होती. प्रमुख अनुसंधानकर्ता डा. पीटर लिउ ने बताया कि हम सभी जानते हैं कि पर्याप्त नींद जरूरी है लेकिन अधिक काम की वजह से समय नहीं निकाल पाते. हमारे अध्ययन में पाया गया कि नींद के घंटे बढ़ा देने से शरीर के इंसुलिन का इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ती है और प्रोड व्यक्तियों में टाइप-2 मधुमेह का जोखिम कम हो जाता है. इंसुलिन किसी व्यक्ति के रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिये जिम्मेदार है. टाइप-2 मधुमेह के मरीज का शरीर उससे निकलने वाले इंसुलिन का कारण दंग से इस्तेमाल नहीं करता और इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता. लिउ ने कहा कि अच्छी खबर है कि प्रोड व्यक्ति जो अधिक काम की वजह से पर्याप्त नहीं सो पाते हैं वे अगर सोने के घंटे बढ़ा दें तो यह जोखिम कम हो सकता है.

थायराइड से सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं

थायराइड की बीमारी तेजी से बढ़ रही है. आंकड़ों की बात करें तो सवा चार करोड़ लोग देश में थायराइड की बीमारी से पीड़ित हैं. इनमें 80 प्रतिशत महिलाएं हैं. आश्चर्य की बात है कि 8-10 प्रतिशत मरीजों की पहचान हो सकी है. थायराइड बीमारी तीन प्रकार की होती है. थायराइड ग्रंथि से हार्मोन बनना बंद या कम हो जाय तो इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं जबकि थायराइड हार्मोन की मात्रा अधिक बनने लगती है तो उसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं. जबकि तीसरी बीमारी घेंघा है. हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों की संख्या सबसे अधिक होती है.

क्या है थायराइड?

थायराइड एक इंडोक्राइन ग्रंथि होती है जो गर्दन के निचले हिस्से में एडमस एपल के ठीक नीचे होती है. इसका काम थायरोक्सिन हार्मोन बनाकर खून तक पहुंचाना है जिससे शरीर का मेटाबोलिज्म नियंत्रित रहे. शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा कम हो जाय तो सुस्ती और अधिक होने पर शारीरिक क्रियाएं तेज हो जाती हैं. थायराइड ग्रंथि का पिट्यूटरी ग्रंथि से नियंत्रण होता है जबकि पिट्यूटरी ग्रंथि हाइपोथेलमस से नियंत्रित होती है. हाइपोथायराइडिज्म में टीएसएच का स्तर बढ़ जाता है और टी3 व टी4 की मात्रा कम हो जाती है. हाइपरथायराइडिज्म में टीएसएच का स्तर घट और टी3 व टी4 की मात्रा बढ़ जाती है.

हाइपोथायराइडिज्म

लक्षण - हमेशा थकान महसूस होना. बिना कारण वजन बढ़ना.



डिप्रेशन या अवसाद होना. हमेशा ठंड लगना. पेट में कब्ज बना रहना. अजीब तरह का दर्द महसूस होना. मासिक स्राव का अधिक होना. एकग्रता की कमी होना. त्वचा और बाल रुखे हो जाना. कारण - आयोडिन की कमी (एंडेमिक गोवाटर) हर्षीमो टो थायरोडाइटिस. सर्जरी या रेडियो आयोडिन थेरेपी के बाद. कुछ प्रकार की दवाइयों का सेवन.

हाइपरथायराइडिज्म

लक्षण - घबराहट या चिड़चिड़ा महसूस करना. अनियमित हृदय का धड़कना. गर्मी सहन न होना. हाथ में कंपन होना. अधिक पसीना आना. बिना कारण वजन कम होना. नींद न आना. थायराइड ग्रंथि का बढ़ना (घेंघा). मासिक स्राव का कम होना. प्रजनन शक्ति क्षीण होना. कारण - ग्रेव डिजीज. टॉक्सिक मल्टी नोडल गोवाटर. टॉक्सिक एडिनोमा. अधिक मात्रा में हार्मोन की गोली का सेवन. इलाज - थायराइड की बीमारियों का इलाज बीमारी के प्रकार पर निर्भर करता है. हाइपोथायराइडिज्म में मरीज का इलाज सल्मीमेट्री थेरेपी से किया जाता है. इसमें थायराइड के हार्मोन (थायरोक्सिन हार्मोन) बाहर से दिया जाता है. हाइपरथायराइडिज्म का इलाज तीन विधि से किया जाता है. पहली विधि में एंटी थायराइड ड्रग्स दी जाती हैं. दूसरी विधि में रेडियो एक्टिव आयोडिन से ग्रंथि को नियंत्रित किया जाता है जिसे रेडियो आयोडिन थेरेपी कहते हैं. तीसरी विधि में सर्जरी करके इलाज किया जाता है. वहीं घेंघा का एक मात्र इलाज ऑपरेशन होता है. बचाव थायराइड की बीमारी से बचाव के लिए अभी तक डॉक्टर आयोडिन युक्त नमक के सेवन की सलाह देते हैं जिससे शरीर में आयोडिन की मात्रा संतुलित रहे, थायराइड की बीमारियां न हों.

थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ने से होता है घेंघा थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ने को ही घेंघा कहते हैं. इसमें थायराइड ग्रंथि बढ़कर गले के सामने की ओर गांठ के रूप में दिखाई देने लगती है. इसमें दर्द नहीं होता है. घेंघा के बढ़ने से सांस की नली, खाने की नली और आवाज की नस पर दबाव पड़ता है. घेंघा छाती के अंदर भी जा सकता है. घेंघा के बारे में लोगों की सोच होती है कि इससे शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन कई बार देखा गया है घेंघा कैंसर में बदल जाता है. मरीज की जान पर बन आती है. थायराइड ग्रंथि में कई प्रकार के कैंसर होते हैं. इनमें पेपिलेरी थायराइड कैंसर, फोलीक्यूलर थायराइड कैंसर, मे ड्यूले री थायराइड कैंसर और अनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर शामिल है.

घेंघा में थायराइड कैंसर के लक्षण

अचानक कम उम्र में घेंघा का होना. पुराना घेंघा का अचानक से बढ़ना. घेंघा के साथ खाना निगलने में परेशानी होना. घेंघा होने पर सूखी खांसी के साथ खून आना. घेंघा के साथ गले के बगल में गांठ का बनना. घेंघा के साथ आवाज में परिवर्तन या भारी पड़ना.

